




आसाम सरकार

बिसोलाय सोलोंथाइयारि फान्जामुथि, 2022-23 (सोलोंथाइ खहा सुफुंसारनाय)



■ थियारि खालामग्रा: हादरसायारि सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम, आसाम

■ काहिलिपारा, गुवाहाटी-781019

गुदि बाथा

थांनाय बोसोरनैफ्राम गासै बुहुमजों लोगोसे जोंनि हादराबो एरैबादि मोनसे साननो हाथावै गाज्जि थासारिजों सरजाब जाबाय जाय मानसिनि सरासनस्त्रा जिउ खुंनायाव गोबां खहा खालामबाय। जुनियायै बे खहाया हादरनि फरायसानि सोलोंथाइयारि जिवाव गोबां बिबां गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों। फरायसालि गोयै बे गोलाव समाफारिया फरायसानि गोसोआव गाज्जि गोहोम खोख्लैनायनि जिंगा जाखार होयो। सोलोंनो गोनां बाथाखौ सममथै सोलोंनो हायाबा उनाव बेखौ फोरोंनो खस्ट जायो। थांनाय समफारियाव सोलोंथाइ नाजावनायनि बिथिडव जाखिनि खहा जाबाय बेयो बिसोरनि फैगौ समखौ हेंथा खालामनायनि गिनायखौ नंखाय होनना बुंनो हाया। हादर आरो गुबुन साजिनि जौगानायनि बिथिडव सोलोंथाइखौ माइलखुन्थिया हिसाबै साननाय जायो। बे सोलोंथाइ राहानि जा थिखालामखानाय हाबाफारिनि फारिखान्थि बेयाव हेंथा जाबोला जौगानायनि खारथाइ थाबथानाया सरासनस्त्रा बाथा। क'भिड-19 गिखंथाव बेरामा मानसिनि गुबुन गुबुन बिथिजों लोगोसे फरायसानि सोलोंथाइयारि हाबाफारियाव खैफोद लाबोना सोलों खहानि थिलिखौ बांहोबाय। बेयो समाज जौगानाय बिथिडव जाथावना हेंथानि मोनसे इसारा।

बेरोखोम थासारियाव जोंनि इयुन जोलैनि सोलोंथाइयारि जिउनि जा हाबाफारि बेखौ फिन सरासनस्त्रा महराव फिदिना लाबोफिननो थाखाय जों नांगौ रोखोमनि सानथाइ आरो नाजानायनि राहा लानो नांगोन। बे हाबायाव सरकारजों लोगोसे फोरोंगिरि, बिगोमा, समाज, फसंथान गासैबो हेफाजाब होनो नांगोन। बे थांखिखौ सिगाडव लाखिनानै हादरसायारि सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम, आसामा थांनाय समफोराव सम सम खायसे सोलोंथाइयारि राहा नाजाव बोनाय जादों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा बिसोरनि सरासनस्त्रा सोलोंथाइयारि जिउजों लोगोसे नांथाबना थानो हायो। तामहिनबा बिसोरनि गोरलै गोसोआव फरायसालिनि सोलोंथाइयारि जिउनि रोंग'थिखौ सिदोब खालामना लाखिनो हायो।

आथिखालाव क'भिड थासारिया इसे जोबथना सरासनस्त्रा थासारि गिदिंबोनायनि जाथावनाखौ नुनो मोनदों। बे बिथिडव सोलिथाइ बोसोरनि सोलोंथाइयारि हाबाफारि सामलायनायनि बेलायाव खायसे गोदान सानथाइनि सोदेरनो नाजानाय जादों।

थांनाय समफोराव फरायसानि सोलों खहानि बिथाथियाव फोरोंगिरिफोरनिसिम खायसे सुबुरुनथायारि बिथोन आरो बे बिथोनखौ मावफुंनयनि थाखाय ' बिसोलाय सोलोंथाइयारि फान्जामुथि खर 'सा' मोनसे सोलों खहा सुफुंसारनाय थियारि खालामना दिहुननाय जादों। बे सुफुंसारनाय बादियै सोलिथाइ बोसोरनि फरा होनाय-लानाय फारिखान्थियाव थांनाय समनि फराफोरनि सायावबो फोरोंगिरिया बेखेवना होनांगोन जाहाथे फरायसानि बै समाव सोलों खहा जालांनायफोरखौ इसे बिबांनि सुफुंनो हायो। बे फुंसारनायाव थाखो आरो आयदाबादियै सोलों फिथाइफोरखौ बावैसो हादरसायारि सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम, आसामनि सामलायनायजों खालामनाय सोलों खहा जरिब एबा Learning Gap Survey निफ्राय लानाय जादों। बेनि अनगायैबो फोरोंगिरिफोरखौबो बे सोलोंथाइ बोसोरनि जागायनायावनो गावबा गावनि फरायसालिनि फरायसानि थाखो आरो आयदा सोनारथाइ सोलों खहाफोरखौ नायबिजिरना दिहुननो सुबुरुन होनाय जादों। सुफुंसारनायाव आयदा बादियै सोलों फिथाइनि गोरबनाय थानाय खायसे फरा सरजाबना दिन्थिनाय जादों। बेखौ सोनारना सोलों फिथाइफोरखौ रोखा खालामना खायसे मावहाबानि नेसोंन सरजाबनाय जादों। बे बिथिडव मिजिं थिनाय जादोंदि सुफुंसारनायनि अनगायैबो साफ्रोमबो फोरोंगिरिया गाव हारसिनो सोलो नाजावना फरायसानि सोलों खहाफोरखौ सुफुंनो नाजागोन जाहाथे बिसोरनि फैगौ सोलों फारिखान्थियाव जेबो रोखोमै हेंथा जाया। गिनाय-समखिनाय, बानायखौ नागारना साफ्रोमबो फरायसायानो जाहाथे फरायसालिनि आबहावायाव गावखौ खाब जाहोना लानो हायो बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव मोनसे रंजाथायारि आबहावा सोरजिनाया गोनां।

अरायनि सोलोंथाइयारि फान्जामुथिजों लोगोसे बे बिसोलाय सोलोंथाइयारि फान्जामुथिखौ राज्योनि गंफ्रोमबो फरायसालियाव मोननो हानायबादियै हादरसायारि सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम, आसामा नाजानायनि राहा लादों। बेखिनियावनो जायफोर सुबुंनि हेफाजाबाव जोबोर खम समनि गेजेरावनो बे खामनिखौ मावफुंनो हानाय जाबाय बिथांमोननिसिम आं बे फसंथाननि फारसेनिफ्राय हामगोजोननाय थाबाय।

मिजिं थियो जोंनि बे नाजानाया फरायसानि फैगौ सोलोंथाइयारि इयुनखौ राफोद खालामनायनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होगोन।



(ड निरदा देबी)

सामलायगिरि

हादरसायारि सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम, आसाम
काहिलिपारा, गुवाहाटी-19

फोरोंगिरिनिस्मि सुबुरुनथाइयारि बिथोन

गाहायाव होनाय बिथोनफोरखौ फोरोंगिरिया फरायसानि सोलों खहानि थोरफो,बिसोरनि गोनांथिनि सायाव नाजावनाय/ खाबजाहोगोन

- सोलों खहा जरिबपनि(Learning Gap Survey) बिथाथियाव रोखा खालामनाय खहाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिया फरायसालि आरो थाखो बादियै फरायसानि गुबुन आयदानि खहाफोरखौ रोखा खालामना लागोन। बे बिथिडाव फरायसालिनि लोगो दांनायसा आयदा फोरोंगिरिजों सावरायलायना थानाय समनि सोलों खहा सुफुंनो थाखाय मोनसे हासायारि मावथांखि थियारि खालामना लानो हागोन। फराफारिनि रोखा खालामनाय सोलों थांखि आरो सोलों खहा सुफुंनो थाखाय फोरोंगिरिया जथाइ एबा सरजाबनाय फोरों सोलों लानो हायो। बिदिन्थिबादियै थानाय आरो सोलिथाइ सोलोंथाइयारि बोसोरनि सोलों फिथाइनि गोरोबनाय थानाय मोननै फरा लोगोलगायना फोरोंनो हायो(नेसोंनखौ सरजाबनाय जादों)
- फरायसानि सोलों खहा सुफुंनो थाखाय जुनियायै बिगियाननि आयदानि बेलायाव मावनाय मावहाबानि बेलायाव बिसोरनि सोरगिदिनि सानफ्रोमबो जिउजों लोबबा थानाय रोंग 'थिफोरनि बिथाथिजों फोरोंगिरिया गुबुन गुबुन मावहाबा मावहोनो हायो।
- सोलों फिथाइनि गोरोबनाय थानाय फरानि थाखाय रंजाथाइयारि आरो बाहागोलाथाइयारि गुबुन गुबुन मावहाबा जेरै-सल'बाथा खोथानाय,हरखाब बिबुंथि,कुइज,हान्जायारि खामानि,जरायै मावनाय,गेवलां सावरायनाय आरि खुंनो हायो।
- फोरोंगिरिया फरायसाखौ हास्थायनाय फिथाइफोरखौ बुथुमनो थाखाय समग्र शिक्षा,आसाम/हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गुथुम,आसामा जगायनाय सोलोंथाइयारि फुंखा जेरै- गाव-सोलों आगजु,उदां सोलोंथाइयारि फुंखा,दीक्षा पर्टेल,निस्टा मडिउल,फोरों-सोलों आगजु,मावबिलाइ आरिनि अनगायैबो अनलाइन आरो अफलाइन फुंखाफोरनि हेफाजाब लानो हागोन।
- रावनि बेलायाव रावखान्थि फोरोंनायाव गथ 'साफोरा सोलोंनो गोनां रावखान्थिफोरखौ बिसोरनि सानफ्रोमबो रायज्जायनायजों लोबबा लाखिना फोरोंबा फोरों-सोलोंआ बांसिन फिथाइ गोनां जागोन।
- फोरोंगिरिया एखेरोखोमनि सोलों फिथाइ थानाय फराफोरखौ सरजाबना रावनि मोनन्रै सोलो जेरै-खोनानाय,रायज्जायनाय,फरायनाय आरो लिरनाय गोसारनायनि राहा लानो हायो।
- फरायसालियाव मजुत थानाय फोरों-सोलों आगजुफोर जेरै-चार्ट,मेप,ग्लब आरि बाहायना समाज बिगियान,आबहावा फरायसं आरि आयदानि थालानाय सोलों खहाफोरखौ बुथुम होनायाव गोसो हागोन।
- आबहावा फरायसंनि खायसे आयदा जेरै: बायदि मैया जिउनां,फोरबो आरिनि थाखाय फरायसानो भिडिअ' दिन्थिनो राहा लानो हायो।
- हादरारि फोरबो एबा सानफोराव गासैबो फरायसाया बाहागो लानायनि सायाव बांसिन गोसो हागोन जाहाथे बिसोर बे फोरबो/ सानफोरनि गोनांथिखौ मोनदां हायो।
- एखेरोखोमनि हास्थायनाय सोलों फिथाइ बुथुमनो थाखाय फोरोंगिरिया खाबु बादियै मोनसेनिखुइ बांसिन थाखोखौ मोनसे समावनो सरजाबनो हायो।
- फरायसाफोरखौ सानखान्थि आयदायाव अनजिमा गियान,अनजिमाफारिखान्थि,ख 'ना,ज 'खा-सुनाय(रोजागासै,मोदोमबां,लाउथाइ),बोखावखोन्दो,नैखोंलारि,थामखोंलारि,फारिग्रोबथि, खारि आरिनि गियान होनाय बेलायाव सानफ्रोमबो जिउजों लोबबा थानाय मावहाबा मावहोनो हायो।
- फरायसानि सोलोंनायनि मान रोखा (assessment) खालामनायनि खारिफोरखौ सरैखा खालामना दोननो हायो।

नायखांबिलाइ

| थाखो | आयदा | फरा नं |
|--------|------------------|--------|
| बैथि | बर'(राव-1) | 1 |
| | सानखान्थि | 2 |
| | इंराजी: राव-2 | 3 |
| | आबहावा फरायसंनाय | 4-5 |
| बाथि | बर'(राव-1) | 6 |
| | सानखान्थि | 7 |
| | इंराजी: राव-2 | 8 |
| | आबहावा फरायसंनाय | 9 |
| द'थि | बर'(राव-1) | 10 |
| | सानखान्थि | 11 |
| | इंराजी: राव-2 | 12 |
| | बिगियान | 13 |
| | समाज बिगियान | 14 |
| स्निथि | बर'(राव-1) | 15 |
| | सानखान्थि | 16 |
| | इंराजी: राव-2 | 17 |
| | बिगियान | 18-19 |
| | समाज बिगियान | 20 |
| दाइनथि | बर'(राव-1) | 21 |
| | सानखान्थि | 22 |
| | इंराजी: राव-2 | 23 |
| | बिगियान | 24 |
| | समाज बिगियान | 25 |

थाखो: ब्रैथि ■ आयदा: बर'(राव-1)

| फारि नं | थाखो थामनि फरा | थाखो ब्रैनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | जोंनि गामि(फरा नं-1) | जोंनि जोनोम हादर(फरा नं-1) | □ गेबें रिसारथिजों खन्थाइ आवरायनो हागोन | □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि खन्थाइ आरि गावनि सोलोबादिये आवरायनो खाबु हागोन। | □ बे सुफुंसारनाय थाखो ब्रैनिफ्राय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादें। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब जथाइ मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | खौसेयानो गोहो (फरा नं-2) | आथिं गोलाव (फरा नं -6) | □ फरायसाया मानगोनां रावाव खोनानाय खन्थाइ,सल',सल'बाथा आरि गावनि आदबजों बुंनो,सोंथि सोंनो आरो गावनि साननाय दाजाबना फोरमायनो हागोन। | □ फराबिजाबनि अनगायैबो मानगोनां रावाव थानाय गथ'सानि थाखाय बानजायथाव सल',सल'बाथा आरि गावनि रावजों बुंनायनि खाबु हागोन। | |
| 3 | रुपक 'वर ज्य 'तिप्रसाद आगरवाला(फरा नं-3) | कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभा(फरा नं-3) | □ गायसंजानाय खन्थाइगिरि,थुनलाइगिरि आरो गेदेमा सुबुंनि खामानि आरो जिउ आदब फरायना,बुजिना थुलुंगा मोनगोन। | □ फोरोंगिरिया गायसंजानाय खन्थाइगिरि, थुनलाइ गिरिनि सावगारि गोनां सार्ट बाहायना बिथांमोननि सोमोन्दै मिनथिनो थुलुंगा हागोन। | |
| 4 | बिबौ आरो फिसौ (फरा नं-4) | उखैनाय(फरा नं-4) | □ गेबें रिसारथिजों खन्थाइ आवरायनो हानायजों लो गोसे □ जायगानि जाग्रा मुवानि सोमोन्दै बुंनो आरो लिरनो हागोन। | □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ जायगानि जामुंजों लोबबा थानाय गुबुन गुबुन खन्थाइ,रायथा बुथुमनो थुलुंगा हागोन। | □ बे सुफुंसारनाय बादिये फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया |
| 5 | शिवसागर नायहैनि फै (फरा नं-12) | आसामनि खाहा दारिमिन(फरा नं-9) | □ हारिमायारि हारिमु सरैखा,थुनलाइ,बुमिन आरो दोरोंडरि सोमोन्दै लिरनायफोरखौ गोसोगुदुडै फरायनो हागोन। □ दाजाबहांखो गोनां सोदोबनि बाहायनाय गोनां सल'बाथा,सल' आरि फरायनो आरो लिरनो हागोन। | □ फोरोंगिरिया सानथाइ आरो सानब्लाडरि गोहोनि गोसारनायनि थाखाय गुबुन गुबुन रोंग'थि (नुना, खोनाना, फरायना) गावहारसिंनो फोरमायनायनि खाबु हागोन। □ साफायनाय लिरनायफोराव थानाय दाजाबहांखो गोनां सोदोब आरो बाश्रा फरायनो थाखाय थुलुंगा हागोन। | सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 6 | खामानिया गैया उन्दै गेदेर (फरा नं-13) | जिरायनाय समनि खामानि (फरा नं-12) | □ जिरायनाय समखौ थारै बाहायनो हानायजों लो गोसे खामानियावदि उन्दै गेदेर गैया बेखौ मोनदांगोन। □ दाजाब हांखोखौ सिफायनानै फरायनो आरो लिरनो हागोन। | □ जिरायनाय समाव गुबुन गुबुन न'नि खामानि, गेलेनाय-रंजानाय,मेथाइ खननाय, फावथिना सोलोंनाय, सल',खौरां बिलाइ आरि फरायनो थाखाय थुलुंगा हागोन | |
| 7 | अनसुलि आइ (फरा नं-14) | | □ बिमानि अननायादि रावजोंबो रुजुजायै बेखौ मोनदांनयजों लो गोसे बिमानि बाउसोमनाय,दुखु आरिखौ मोनदांनो हागोन। | □ फरायसाखौ गावनि बिमानि सानफोमबो जिउनि खामानि-दामानि,आसार-खान्थि आरि नायबिजिरनो होना बिमानि अननायादि रुजुजाया बेखौ फोरोंगिरिया मोनदां हागोन। □ मोनफोमबो जिबनि थाखाय दि बिमानि अननाया रुजुजाया बे बिथिडव नुनाय-खोनानाय बिजोंजों बेखेवगोन। □ बिमानि अननायजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ खन्थाइ लिरनाय एबा बुथुमना फरायनो हागोन। | □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |

थाखो: ब्रैथि ■ आयदा:सानखान्थि

| फारि नं | थाखो थामनि फरा | थाखो ब्रैनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 1 | महर आरो नक्सा (फरा नं-1) | महर आरो नक्सा (फरा नं-1) | <input type="checkbox"/> सोरगिदिडव थानाय महरफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन <input type="checkbox"/> नैखोंलारि महरनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> होनाय जेनि हेफाजाबजों आयतारि घनक थियारि खालामनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फरायसालिनि सोरगिदि/ थाखोखथायाव मोननाय गुबुन गुबुन महर बुथुमना बेफोरनि देरथाइ,महर बादियै थाखोराननो हागोन। <input type="checkbox"/> लेखाबिलाइ थनना /हाना नैखोंलारि महर थियारि खालामनो हागोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफाय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफाय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब जथाइ मुवाफोर मोनगोन। <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनाय बादियै फराफोरखौ |
| 2 | <input type="checkbox"/> अनजिमानि गियान 100 निफ्राय 500 सिम(फरा नं-2) <input type="checkbox"/> अनजिमानि गियान 500 निफ्राय 999 सिम(फरा नं-4) | अनजिमानि सानखांथाइ(फरा नं-2) | <input type="checkbox"/> मोनथाम सानजिमा थानाय अनजिमाजों खामानि मावनो हागोन। <input type="checkbox"/> 10,000 सिम थावनियारि मान बाहायनायनि गेजेरजों अनजिमाफोरखौ फरायनो आरो लिरनो हागोन। | <input type="checkbox"/> मोनसे हान्जाखौ अनजिमा लिरनो (10,000 नि गेजेराव) हागोन आरो गुबुन मोनसे हान्जाखौ फरायनो हागोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनाय सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 3 | सम(फरा नं-3) | सम(फरा नं-14) | <input type="checkbox"/> घड़ी नायनो सोलोंनायजों लोगोसे रिंगा आरो मिनिटआव सम बुंनो रोंगोन आरो समखौ a.m आरो p.m आव फोरमायनो हागोन। <input type="checkbox"/> घन्टायारि सम बादियै 24 घन्टायारि घड़ीनि सोमोन्दो खालामनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया गाहायनि सोंथिफोरखौ फरायसाखौ सोंगोन- क) फुंडव बेसेबां समाव सिखारो ? ख) फरायसालियाव बेसेबां रिंगायाव फैयो ? ग) फरायसालिनिफ्राय न'आव बेसेबां समाव थाडे ? बे सोंथिफोरनि जोहै घड़ी(TLM) नि हेफाजाबजों थि समनि सानदांथाइ हागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ फरायसालिनि सोरगिदिडव नुनाय मुवाफोरखौ नायबिजिरना खारि बुथुमनो हागोन आरो लाउथि बो सावगारिनि दारै दिन्थिनो हागोन। |
| 4 | खारि बुथुमनाय (फरा नं-13) | खारि बाहायनाय (फरा नं-7) | <input type="checkbox"/> खारि बुथुमना दागहांखोनि जोहै खारिफोरखौ लाउथि बो सावगारिनि दारै दिन्थिफुंनो हागोन। <input type="checkbox"/> बुथुमनाय खारिफोरनि हेफाजाबाव फारिलाइ आरो लाउथि बो सावगारिनि हेफाजाबजों दिन्थिना बेखेवनो हागोन। | <input type="checkbox"/> नकल रां एबा कार्डनि हेफाजाबजों हान्जायै 'बाजार बाजार' मावहाबा खालामगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 5 | रां आरो फैसा(फरा नं-14) | रां आरो फैसा(फरा नं-4) | <input type="checkbox"/> सानलुलि खान्थिनि गुदि मोनब्रै फारिखान्थिनि बाहायनायनि दारै सानफ्रोमबो जिवाव सोमजिनाय रां-फैसा सोमोन्दोयारि जेंना सुस्त्रांनो हागोन। | | |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

Class-IV ■ Subject: English(Language-2)

| Sl. No. | Lesson of Class. III | Lesson to be clubbed with Class. IV | Learning outcomes of clubbed /single lessons | Suggestive activities | Remark |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Ten Little Fingers (Lesson-1) | Oh, Look at the Moon. (Lesson-1) | <input type="checkbox"/> Recite poems individually/ in groups with correct pronunciation and intonation. <input type="checkbox"/> It will develop their imaginative thinking | <input type="checkbox"/> The teacher will recite any poem with correct pronunciation and Intonation. | <input type="checkbox"/> The classes from IV- VIII are included in this complementary material. From Class I to Class-III bridge material will be made available in the school <input type="checkbox"/> To manage the lessons as per the complementary materials provided, the teacher will prepare a weekly plan on the model of the daily time-table . <input type="checkbox"/> In addition to that the teacher will adopt strategies from ownself for lesson integration and activities to be done. |
| 2. | Two Friends and a Bear (Lesson-2) | The Hidden Treasure. (Lesson-4) | <input type="checkbox"/> Develop their 4 skills (reading, writing, listening & speaking) of language. <input type="checkbox"/> Understand the moral of the story | <input type="checkbox"/> The teacher will explain the story to the students and ask them the moral of that particular story. <input type="checkbox"/> The teacher will encourage the students to explore the library and collect story books | |
| 3. | A Brave General (Lesson-3) | _____ | <input type="checkbox"/> They can understand the story and characters in English language. | <input type="checkbox"/> The teacher will provide them few jumbled words and sentences and tell them to rearrange the words and sentences. | |
| 4. | Never say 'I can't!' (Lesson-7) | _____ | <input type="checkbox"/> Understand and apply the element of sentence and grammar. | <input type="checkbox"/> Some questions will be asked by the teacher based on their daily life and students will try to answer them. | |

- The teaching should be made interesting with the use of various audio, video, interactive content, and practice resource available on DIKSHA portal.

थाखो: ब्रैथि ■ आयदा: आबहावा फरायसंनाय

| फारि नं | थाखो थामनि फरा | थाखो ब्रैनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|----------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | बिफां-लाइफांनि बाश्चा (फरा नं-1) | गुबुन गुबुन आबहावानि लाइफां (फरा नं-8) | <ul style="list-style-type: none"> □ देरथाइ आरो दाथाइनि सायाव बिथा खालामना रज'जिबफोरनि मोनब्रै बाहागोनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ जोंनि सोरगिदिं थानाय रज'जिबनि बिलाइनि देरथि,बोरोन,दाथाइ,मोदोमाय आरि सरासनस्त्रा आखुथाइफोरखौ सिनायथिनायनि अनगायैबो बिफां-मोदोम आरो बिफांनि बिगुर सिनायनो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसालिनि सोरगिदिं थानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि रज'जिबनि बिलाइ बुथुमना फरायसाफोरखौ हान्जायै रोखोमबादियै सिनायना दिहुननो होगोन। □ मुलिहारिनि बिफांनि मुं,बिगियानारि मुं आरो बानजायनायनि सोमोन्दै मख'ना फरायसाफोरखौ फारिलाइ थियारि खालामनायाव फोरोंगिरिया हेफाजाब होगोन। □ गुबुन गुबुन बिलाइनि हारैरियाम थियारि खालामनो होना एलबाम बानायनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफ्राय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब जथाइ मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | बिबार(फरा नं-2) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ बिबारनि गुबुन गुबुन रोखोम जेरै- मोदोमनाय थानाय,मोदोमनाय गोयै आरो गुबुन गुबुन बोथोराव बारनाय बिबारनि मुं मिथिगोन। □ बिबारनि गुबुन गुबुन बाहायनायनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया बायदि रोखोम बिबारनि सावगारि दिन्थिना फरायसाफोरखौ बै बिबारनि मुं आरो गाबनि मोनसे फारिलाइ थियारि खालामनो होगोन। □ बिबारनि बायदि रोखोमै बाहायजानानायनि सोमोन्दै बुंनो होगोन। | |
| 3 | जिउनांनि थाग्रा खुलि (फरा नं-3) | जिब आरो आबहावा (फरा नं-7) | <ul style="list-style-type: none"> □ सोरगिदिं थानाय जिउनां आरो दाउनि सरासनस्त्रा आखुथाइफोर,हान्थिनाय,बबेयाव थायो, आदारहुदा, गाबनाय बायदि बायदि सिनायथिनो हागोन। □ मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि न'नायाव/ बाहायनाय गोनांजानाय मुवानि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया स्मार्ट फ'नाव गुबुन गुबुन जिउनांनि थाग्रा खुलिनि भिडिअ/सावगारि दिन्थिना फरायसाखौ बेनि सायालाना सोरगिदिं थानाय जिब-जुनारनि थाग्रा खुलिनि मोनसे फारिलाइ थियारि खालामनो होगोन। | |
| 4 | बायदि-मैया जिउनां (फरा नं-4) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ हायाव थाग्रा,दैयाव थाग्रा आरो दै-बोरियारि जिउनांनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ बासिन जिउनांछनोदि आदारनि थाखाय रज'जिबनि सायाव सोनारो बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया गुबुन गुबुन जिउनांनि मुनि मोनसे चार्ट थियारि खालामना फरायसाखौ चार्टनिफ्राय दैयाव थाग्रा,हायाव थाग्रा आरो दै-बोरियारि जिउनां आरिनि मोनथाम बाहागोआव राननो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनाय बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 5 | दै(फरा नं-5) | दै (फरा नं-3) | <ul style="list-style-type: none"> □ दैन गुबुन गुबुन फुंखानि सोमोन्दै मिथिगोन □ दैन मोजाडै-बाहायनायनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ दैया माबोरै गुबुंले जायो बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया सोदोब जिन्जिनि जोहै दैन गुबुन गुबुन फुंखाफोरखौ सायख'ना दिहुननो आरो बुंनो होगोन। □ फरायसालियाव 'हायुंयारि दै सान' जों लोबबा लाखिना रनसाय लिरनायनि बादायलायनाय खुंनो। | |
| 6 | देहानि जोथोन(फरा नं-6) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ देहाखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय आदार,जिरायनाय आरो उन्दुनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ देहाखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय गेलेनाय आरो ब्यामादि गोनांथार बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसानि बैसोजों खाबजानाय बादियै एक्ससारसाइच, ध्यान,य'गासन आरिनि सायाव बानायनाय बायदि रोखोमनि भिडिअ' फोरोंगिरिया फरायसानो दिन्थिगोन। □ फोरोंगिरिया गोसोगुदुं फरायसानि दारै य'गासन/गोरलै ब्याम दिन्थिनायनि राहा खालामगोन। | |
| 7 | मौजादार आबौ (फरा नं-16) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ गावनि गामि,सुबा,मौजा,सार्कल आरो महकुमानि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ गावबा गावनि गामिनि मौजादारनि मुंखौ बुथुमनो होना बिथांमोननि खामानिनि सोमोन्दै थाखोआव बुजायना होगोन। | |

| फारि नं | थाखो थामनि फरा | थाखो त्रैनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|---|---|--|--|--|
| 8 | जोंनि राज्यो आरो बेनि जिलाफोर(फरा नं-17) | <input type="checkbox"/> जोंनि राज्योआ (फरा नं-17) <input type="checkbox"/> जोंनि जिलाफोरनि माखासे बाश्रा(फरा नं-18) | <input type="checkbox"/> मानसावगारियाव साखाथिनि ओनसोल,दिन्थिथि सिन,बबेबा जायगानि थाथाव,गाहाइ जागयाफोरखौ सिनायनो हागोन आरो गुबुनखौबो बेफोरखौ नागिरना दिहुननायाव बिथोन होनो हागोन। <input type="checkbox"/> गावनि राज्यो,जिला आरो सोरगिदिं सिमानि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया मानसावगारि/ग्लबनि हेफाजाबजों गावनि जिलाजों लोगोसे राज्योनि नायदिंथाव जायगा,मख 'जाथाव दैमा-दैसा आरि दिन्थिगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख 'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन।। |
| 9 | आजिरा समनि बाहायथि (फरा नं-18) | ————— | <input type="checkbox"/> सोरजिथाइयारि खामानिनि गेजेरजों माबोरै आजिरा समखौ मोजाइ बाहायनो हायो बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> ज्लाइसि,सल'बाथा बिजाब,खौरां बिलाइ, गथ 'सानि आयदाफोरखौ फरायनायनि हुदा दानो हागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया आजिरा समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गथ 'साजों खाबजाथाव बिजाबनिफ्राय,फेस्ता,बाश्रा फांथे,सल' आरि बुथुमना फरायसाफोरखौ फरायनो हागोन आरो गावनि रावजों बुंनो हागोन। <input type="checkbox"/> आखाइ शिल्पजों लोबबा थानाय बायदि रोखोमनि बादायलायनाय खुंनाय जागोन। | |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: बाथि ■ आयदा: बर'(राव-1)

| फारि नं | थाखो ब्रेनि फरा | थाखो बानि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|--|--|--|---|
| 1 | मानसिनि गेजेराव सिया बोरै फेरखो(फरा नं-2) | माथाम नानि सल'(फरा नं-10) | <ul style="list-style-type: none"> □ साननाय आरो सानब्लाउरि गोहोनि हेफाजाबजों गुबुन गुबुन रोंग 'थिखौ गावगोसोबादियै फोरमायनो हागोन। □ बाथ्राफाव,बाथ्रा फान्दाय आरो बोसोन आरि मिथिगोन आरो थिगमथै बाहायनो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया गुबुन गुबुन रोखोमनि सल 'बाथा, सल' आरि फरायनो होना गावनि गोसोबादियै फोरमायनो खाबु होगोन। □ बाथ्रा फांथे सोंनाय आरो सिफायनाय, बाथ्राफाव,बोसोन आरि मिथि होना थिगमथै बाहायनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रेनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | उखैनाय(फरा नं-4) | फिथानि मेल(फरा नं-4) | <ul style="list-style-type: none"> □ जायगानि जामुनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो बेनि बानजायनायनि सोमोन्दै बुजिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया जायगानि जामुं मुवाफोरजों लोबबा लाखिना थाखो खथायाव हरखाब बुबुंथिनि मावहाबा खुंगोन। | |
| 3 | जोनोम साननि लाहार फाहार (फरा नं-13) | गेन्द्रा आरो जासुलानि नांज्लायनाय(फरा नं-9) | <ul style="list-style-type: none"> □ गथ 'सानि खाबजानाय भावना,दावदिनाय थियेटार,,थुनफावथाइ,टिभिनि हाबाफारि नायगोन आरो रेडिअ' सेन्टारनिफ्राय फोसावनाय आफादफोरखौ खोनासंना गावनि गोसोबादियै सल' महराव बुंनो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया फराखौ फावथाइ महराव दिन्थिफुंनो थाखाय थुलुंगा होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 4 | बिफाड थाबायोब्ला (फरा नं-14) | बिबार खुंगुरनि मेथाइ(फरा नं-7) | <ul style="list-style-type: none"> □ सानब्लाउरि गोहोआ बांगोन। □ बर 'नि सल 'गुदियारि मेथाइनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायाव सरजाबनाय खन्थाइफोरखौ सिनायथिना मोनसे फारिलाइ फरायसाफोरखौ थियारि खालामनो होगोन। □ फोरोंगिरिया बिफां, बिबार, दाउ, सिखरि, अखाफोर आरिनि खायसे सावगारि बर्डआव आखिगोन। दानिया बेफोर सावगारिफोरखौ मोनफा आखु महरै हमना साफोमबो फरायसाखौ मोनफायै रायज्लायनायनि नेसॉनि थियारि खालामनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बेयाव मख 'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: बाथि ■ आयदा: सानखान्थि

| फारि नं | थाखो ब्रैनि फरा | थाखो बानि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | अनजिमानि सानखांथाइ (फरा -2) | अनजिमा आरो फारिखान्थि(फरा -1) | <p>□ सोरगिदिं थानाय 10,000 सिम अनजिमाफोरखौ थावनि मानजों लोगोसे फरायना सानफ्रोमबोनि जिवाव अनजिमानि गुदि फारिखान्थि बाहायनो हानाय जागोन।</p> <p>□ मोनसे गेदेर अनजिमाखौ थावनि मानबादियै सिफायना लाना खाबजानाय खान्थि बाहायना दाजाब-दानख' आरो सानजाबनो हागोन।</p> | <p>□ फरायसाफोरखौ गंभा मथरसाइखेलनि नम्बर आरो गंथाम गाडीनि नम्बर लिरना लाबोनो होना साफ्रोमखौबो बुनो होगोन आरो बेनि बिथाथिजों थावनि माननि सानथाइया रोखा जागोन।</p> | <p>□ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन।</p> <p>□ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथाथि थियारि खालामना लागोन।</p> |
| 2 | लाउथाइ(फरा नं -2) | ज'खा सुनाय(लाउथाइ)(फरा नं -8) | <p>□ मोननै थावनियाव थानाय मुवानि लाउथाइ एबा जानखारथि सानदांनो हानाय सोलो बुधुमना लाउथाइ सुनो हानाय सानगुदिफोरखौ मिथिनायजों लोगोसे बेफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोफोरखौ मिथिगोन।</p> <p>□ सानगुदिफोरखौ गेदेरनिफ्राय फिसासिम आरो फिसानिफ्राय गेदेरसिम सोलायनो हागोन।</p> | <p>□ फरायसाखौ ज'खा सेवारि एबा फिटा(मि: आरो छे:मि: थानाय) जों गावनि सानखान्थि फराबिजाबनि लाउथाइ आरो गुवारनि ज'खा दिहुननो होगोन।</p> <p>□ गोलाउ फिटानि(मि: आरो छे:मि:) नि जोहै डेक्स-बेन्सनि लाउथाइ,खथानि लाउथाइ मि: आरो छे:मि: आव थि खालामनो होगोन।</p> | <p>□ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन।</p> |
| 3 | सोरगिदिं सिमा आरो दब्लाइथि(फरा नं -13) | दब्लाइथि आरो सोरगिदिं सिमा (फरा नं-3) | <p>□ गोरलै, भुमसुआरि महरनि (आयत, बर्ग, आखान्थिथाम) दब्लाइथि आरो सोरगिदिं सिमा थि खालामनो हागोन।</p> | <p>□ फरायसालिनि सोरगिदिं आबहावायाव थानाय गुबुन गुबुन मुवानि (बर्ड,खिरखि,बिजाब,सुजाब आरिनि) हेफाजाबजों महरनि सानखांथाइजों लोगोसे दब्लाइथि आरो सोरगिदिं सिमानि ज'खा सानगुदियाव फोरमायनो हागोन।</p> | <p>□ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन।</p> |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

Class-V ■ Subject: English(Language-2)

| Sl. No. | Lesson of Class. IV | Lesson to be clubbed with Class. V | Learning outcomes of clubbed /single lessons | Suggestive activities | Remark |
|---------|---|---|--|---|--|
| 1. | The Ant and the Grasshopper. (Lesson-2) | The Joy of Helping. (Lesson-2) | <input type="checkbox"/> Participate in classroom discussions on questions based on the day to day life and texts he/she already read or heard. | <input type="checkbox"/> The teacher will follow the activity No.3 of the lesson and make every student read. <input type="checkbox"/> Students will be encouraged to read other story books. | <input type="checkbox"/> The classes from IV- VIII are included in this complementary material. From Class I to Class-III bridge material will be made available in the school <input type="checkbox"/> To manage the lessons as per the complementary materials provided, the teacher will prepare a weekly plan on the model of the daily time-table . <input type="checkbox"/> In addition to that the teacher will adopt strategies from ownself for lesson integration and activities to be done. |
| 2. | Who has seen the wind? (Lesson-3) | All Things Bright and Beautiful. (Lesson-1) | <input type="checkbox"/> Recites poems with appropriate expressions and intonation. <input type="checkbox"/> Will be able to describe about nature in English language. | <input type="checkbox"/> They will be told to write few sentences on their surrounding. <input type="checkbox"/> Encourage the students to use the dictionary to find out spellings and meaning of the word. | |
| 3. | A visit to Sivasagar (Lesson-8) | The Joy of Living. (Lesson-6) | <input type="checkbox"/> Describes briefly orally/in writing about events, places or personal experiences in English. | <input type="checkbox"/> The teacher will give them dictation for various purposes. <input type="checkbox"/> Students will be encouraged to read notice board, newspaper headlines, posters etc. | |

- The teaching should be made interesting with the use of various audio, video, interactive content, and practice resource available on DIKSHA portal.

थाखो: बाथि ■ आयदा: आबहावा फरायसंनाय

| फारि नं | थाखो ब्रेनि फरा | थाखो बानि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | थाखो बानि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| 1 | न'खर(फरा नं-1) | _____ | <p>□ मोनसेल' न'खर आरो जथाइ न'खरनि सोमोन्दै मिथिनायनि अनगायैबो न'खरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दो,बिबान,मावनां आरो सोनारलायनायनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया बर्डआव न'खर बिफानि सावगारि आखिना फरायसानो न'खरनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरनि सासेया सासेजों थानाय सोमोन्दोनि बागै बुजायना होगोन।</p> <p>□ फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया मावनाय खामानिनि फारिलाइ थियारि खालामना लाबोनो होगोन।</p> | <p>□ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रेनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन।</p> |
| 2 | फोरबो(फरा नं-2) | _____ | <p>□ आसामनि अनगायै भारतनि गुबुन गुबुन हादरनि खायसे मख'जाथाव फोरबोनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> <p>□ गुबुन गुबुन जायगानि फोरबोफोरखौ माबारै फालियो बेखौ मिथिगोन।</p> | <p>□ आसामजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हादरनि हारिमायारि फोरबोजों लोबबा लाखिना सुंद' बिबुंथि, हरखाब बिबुंथि,हारिमायारि खसाब गाननाय आरिनि बादायलायनाय खुंगोन।</p> <p>□ गुबुन गुबुन हादरनि फोरबोनि भिडिअ'जों लोगोसे खुगा मेथाइ, खुगा मोसानायनि भिडिअ' दिन्थिनायनि राहा खालामगोन।</p> | |
| 3 | हार्युआरि सान(फरा नं-4) | _____ | <p>□ हादरारि सानफोर जेरै-सुबुं खान्थि सान,उदांस्त्रि सान, गथ'सा सान,फोरोंगिरि सान आरो गान्धी जयन्तीनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> <p>□ हारिमायारि फिरफिलानि गोनांथि आरो आखुथाइनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया फरायसाखौ हारिमायारि सान फालिनायखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे फरायसानि गेजेराव सावगारि आखिनाय, बिबुंथि होनाय, मोसानाय-मेथाइ खननाय खुंगोन।</p> | <p>□ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन।</p> |
| 4 | बार(फरा नं-5) | _____ | <p>□ बाराव थानाय गाहाइ गेसफोरनि मुं मिथिगोन।</p> <p>□ बार गेब्रेनायनि थादेरसाफोरा आरो बेफोरखौ होबथानायनि राहाफोरखौ बुजिमोनगोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया फरायाव थानाय (ममबाति आरो गिलास) मावहाबानि जोहै फरायसाखौ जॉनि सोरगिदिं थानाय बारजों गोरोबना थानाय बायदि रोखोम गेसनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> <p>□ बार गेब्रेनाय आरो बेनि होबथानायनि सोमोन्दै मोनसे सांग्रांथियारि आफाद फोरोंगिरिया फरायसालियाव खुंगोन।</p> | |
| 5 | लाइफां आरो आबहावा (फरा नं-6) | _____ | <p>□ लाइफां आरो जिउनांनि मोनसेया मोनसेनि सायाव सोनारलायनायनि सोमोन्दै बुजिगोन।</p> <p>□ आबहावानि समानथाइ रैखा खालामनायनि बेलायाव लाइफांनि गोनांथिनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> | <p>□ लाइफांनि गोनांथिजों लोबबा लाखिना खायासे आयदा सायख'ना फरायसानि गेजेराव हरखाब बादायलायनाय एबा सुंद' बिबुंथि खुंनयजों लोगोसे फरायसाफोरखौ स्ल'गान ,पस्टार लिटरनो होगोन।</p> | |
| 6 | कम्पिउटार आरो फोनांजाब (फरा नं-16) | _____ | <p>□ फोनांजाबनि गुबुन गुबुन राहानि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> <p>□ कम्पिउटारनि गुबुन गुबुन बाहागो आरो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया बर्डआव कम्पिउटारनि सावगारि गंसे दिन्थिना बेनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ सिनार्यथि खालामना होनायजों लोगोसे बेफोरनि खामानिनि सोमोन्दै बुजायना होगोन।</p> <p>□ कम्पिउटारनि हेफाजाबजों मावनो हानाय खामानिनि फारिलाइ थियारि खालामनो होगोन।</p> | <p>□ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन।</p> |

थाखो: द 'थि ■ आयदा: बर' (राव-1)

| फारि नं | थाखो बानि फरा | थाखो द 'नि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | आसामा जोंनि समायना (फरा नं-1) | जोंनि उजिनाय हा बिमा(फरा नं-4) | <input type="checkbox"/> खन्थाइ/मेथाइनि गुबै बाभ्रा बुजिना लिरनो हागोन <input type="checkbox"/> हादर मोजांमोननायनि गोसो जाखारगोन | <input type="checkbox"/> फरा बिजाबाव सरजाबनाय हादर अनफावरि खन्थाइफोरखौं गेबें महरें मिनिथिनो थाखाय रोंग 'थि गोनां सुबुंनि जोहै एबा मावबादानि जोहै फोरोंनायनि राहा खालामगोन। <input type="checkbox"/> गोदानै मोननाय सोदोबनि ओंथि बुजिनो थाखाय सोदोब बिहुं नायनायनि सोलो फोरोंगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौं सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौं सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 2 | दाड आरो मानसि(फरा नं-2) | मिथिंगाजों गेलेनि फै (फरा नं-14) | <input type="checkbox"/> सल',सल'बाथा आरि फरायना गावनि रावजों बुंनो हागोन <input type="checkbox"/> दाडमा-दाडसा,बिफां-लाइफांनि बानजायनायनि सोमोन्दै मिथिनाय आरो मानसिजों सोमोन्दो थानायनि फासें मिथिनायजों लोगोसे बेफोरनि सरैखानि थाखाय सांग्रांथि लाबोगोन। | <input type="checkbox"/> माबेबा सल' आरि फरायना सल'नि जाथाइनि सोमोन्दै मिथिनो,सल'नि फासें बिबुंथि होनो खालु होगोन। <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया आबहावायाव थानाय दाडसिन-दाडला, जिब-जुनारखौं सिनायथिना दिहुननो थुलुंगा होगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौं सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 3 | थेबगांनि आर 'जलाइ(फरा नं-3) | _____ | <input type="checkbox"/> लाइजाम आरो आर 'जलाइनि सानखांथिया रोखा जागोन आरो लिरनो हागोन। <input type="checkbox"/> थाइजा सोदोबमानि सानखांथाइ मोनगोन आरो बाहायनो हागोन। | <input type="checkbox"/> गुबुन गुबुन हांखाय लाइजामनि जोहै फोरोंगिरिया लाइजाम आरो आर 'जलाइनि सानथाइ होगोन। <input type="checkbox"/> बर्डआव गुबुन गुबुन थाइजा सोदोबमानि मोननैसो बाभ्रा लिरना फरायसानो समनि सोमोन्दै सानथाइ होगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख 'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 4 | खेराइ ड्फोरबो(फरा नं-13) | बर 'राव आरो थुनलाइनि जागायजेननाय(फरा नं-9) | <input type="checkbox"/> हारिमायारि हारिमु, राव-थुनलाइ, बुमिन, दोरोंडारि सोमोन्दै लिरनाय फरायना बेनि सोमोन्दै मिथिनो गोसो गुदुं जागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया म'बाइल/प्रजेक्टरनि हेफाजाबजों खेराइ,दौदिनि आरि गुबुन गुबुन भिडिअ' दिन्थिना फरायसाफोरनो बर 'नि दोहोरुम,हारिमुनि सायाव सुंद' बेखेवथि होगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख 'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौं गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: द'थि ■ आयदा: सानखान्थि

| फारि नं | थाखो बानि फरा | थाखो द'नि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | ख'ना(फरा -2) | _____ | <p>□ ख'ना आरो महरनि सानदांथाइ दिहुनना आबहावायाव मोननाय मुवानिफाय ख'नानि बिदिन्थिफोरखौ सिनायथिनो हागोन।</p> <p>□ ख'नानि ज'खा बादियै ख'नाफोरखौ बाहागो राननानै बेफोरखौ नक्सजों फोरमायनो हागोन।</p> | <p>□ आबहावायाव मोननाय ख'नाफोरखौ नायबिजरना ख'नाफोरनि ज'खा रुजुनो हागोन।</p> <p>□ फराबिजाबनि ख'नाफोरा बेसेबां डिग्री ख'ना थायो बेफोरखौ फरायसाखौ ख'नामान आगजुनि हेफाजाबजों सुनो होना बुंनो हागोन आरो हेफाजाब खालामगोन।</p> | <p>□ बे सुफुंसारनायाव थाखो त्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफाय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन।</p> <p>□ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन।</p> |
| 2 | सानजाबगिरि आरो सानजाबथाइ(फरा नं -4) | अनजिमाफोरनि रोखोम(फरा नं -2) | <p>□ सानजाबनि खान्थि मोनसे गारना मोनसे साननाय,सानजाबगिरि बिफां आरो सानजाबगिरि सोरखिनि जोहै सानजाबगिरिनि सानदांथाइ गोसार होनो हागोन।</p> <p>□ जुनिया थासारियाव दे.सा.सा आरो दु.सा.सा बोरै बाहायनो नांगौ मिथिगोन।</p> | <p>□ फरायसाखौ हान्जायाव बाहागो राननानै खायसे अनजिमा जेरै-1,2,3,4 आरिनि सानजाबगिरि आरो सानजाबथाइ दिहुननो हागोन।</p> <p>□ फोरोंगिरिया अनजिमा कार्डीनि हेफाजाब लाना(1-50) फरायसाखौ सानजाबगिरि सायख'ना दिहुननो हागोन।</p> <p>□ सानजाबगिरि बिफांनि हेफाजाबजों खायसे थि अनजिमानि सानजाबथाइ दिहुननो हागोन।</p> | |
| 3 | थामखोंलारि आरो नैखोंलारि (फरा-5) | गुदि दाथाइफोर (फरा-6) | <p>□ थामखोंलारि आरो नैखोंलारि दाथाइयाव आखिना फोरमायनो हागोन।</p> <p>□ नैखोंलारि /थामखोंलारि नैखोंलारि आरो मुवाफोरनि हाबा थिखिनि बिन्दो,थाला आरिफोरखौ बिदिन्थि होना बेखेवनो हागोन।</p> | <p>□ कार्डबर्डनिफाय बर्ग,आखान्थि थाम,बेंखन आरि हाना दिहुनना थामखोंलारि आरो नैखोंलारि दाथाइनि गोरोरनाय आरो फारागथि बुजायगोन।</p> | |
| 4 | रोजागासै आरो मोदोमबांनि ज'खा(फरा नं -11) | _____ | <p>□ रोजागासै आरो मोदोमबांनि ज'खा सुनो हानाय खायसे गेदेर आरो फिसा सानगुदि गेजेरनि सोमोन्दो मिथिगोन</p> | <p>□ फोरोंगिरिया दैन बथल,गाबगोनां दैन पेकेट आरि बुथुमना बेनि लेबेलाव थानाय गोजोरथि गोहोनि सानगुदिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।</p> | |
| 5 | आगर नायनि फै (फरा नं-13) | _____ | <p>□ गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरजों लोगोसे अनजिमानि आगरफोरखौ दिहुननो हागोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया गुबुन गुबुन आगरगोनां चार्टनि हेफाजाबजों अनजिमानि आगरफोरखौ दिहुननो हागोन।</p> | |
| 6 | ज'खा सुनायनि बाहायनाय (फरा नं-14) | _____ | <p>□ फरायसाया सानफोमबो जिउजों लोबबा थानाय लाउथाइ, लिरथाइ,रोजागासै आरो सम सोमोन्दै जेंनाफोरखौ सानलुलि खान्थिनि गुदि मोनब्रै फारिखान्थिजों सुस्त्रांनो सोलोंगोन।</p> | <p>□ फोरोंगिरिया सम, लाउथाइ, लिरथाइ, रोजागासैनि सानगुदिजों गुबुन गुबुन मुवानि बिदिन्थि होना फरायसाखौ बेफोरनि गासै ज'खा सुना दिहुनना थि सानगुदियाव फोरमायनो हागोन।</p> | |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

Class-VI ■ Subject: English(Language-2)

| Sl. No. | Lesson of Class. V | Lesson to be clubbed with Class. VI | Learning outcomes of clubbed /single lessons | Suggestive activities | Remark |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Bird Talk. (Lesson-2) | The Rainbow. (Lesson-2) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Recites and shares English songs, poems, games, riddles stories, tongue twisters, etc. with peers and family members. ❑ Connects ideas that he/she has inferred , through reading and interaction, with his/her personal experiences. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The teacher will collect some pictures of birds and tell the students to write their names. ❑ The teacher will follow the activity no 11. of lesson 2 of class VI. ❑ By asking the names of various things of the classroom, the teacher will explain them about noun and pronoun. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The classes from IV- VIII are included in this complementary material. From Class I to Class-III bridge material will be made available in the school ❑ To manage the lessons as per the complementary materials provided, the teacher will prepare a weekly plan on the model of the daily time-table . ❑ In addition to that the teacher will adopt strategies from ownself for lesson integration and activities to be done. |
| 2. | The Stork and the Fox. (Lesson-4) | ————— | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Appreciate either verbally/ in writing the variety in food, dress. Customs and festivals as read/heard in his/her day to day life, in story books/heard in narratives/ seen in videos, films, etc. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The teacher will encourage the learners to talk about the food seen in the picture. ❑ Instruction can be given by the teacher to act the story.(role-play). | |
| 3. | Hello Computer (Lesson-8) | Uses of ICT. (Lesson-4) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Students will gain knowledge of technology-friendly vocabulary. ❑ Writes informal letters/formal letters, messages and e-mails. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The teacher will teach the students the uses of computer. ❑ The teacher will enrich learners with the new words related to information and communication technology | |

- The teaching should be made interesting with the use of various audio, video, interactive content, and practice resource available on DIKSHA portal.

थाखो: द'थि ■ आयदा: बिगियान

| फारि नं | थाखो बानि फरा | थाखो द'नि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | जौनि आबहावा(फरा नं-1) | जिब आरो बेसोरनि आबहावा(फरा नं-9) | <ul style="list-style-type: none"> □ सुबुं सोरजि आरो मिथिंगायारि आबहावनि सोमोन्दै मिथिनायजों लोगोसे मिथिंगायारि आबहावा दि जिबियारि आरो जिबियारि नडि थादेरसाजों दाजानाय बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ मिथिंगा आरो जिबनि गावजों गावनि सोनारलायनायखौ बुजिमोनगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया गांसे सावगारिनि हेफाजाबजों सुबुं सोरजि आबहावा आरो मिथिंगायारि आबहावनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ बुजायना होनायजों लोगोसे जिब आरो रज जिबनि मोनसेया मोनसेनि सायाव सोनारलायनाय बाथ्राखौबो मख'गोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनायाव थाखो त्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। |
| 2 | सोरथाथाइ बिखाथि (फरा नं-2) | आदार(जामुं): बेयो बबेनिफाय फैयो ? | <ul style="list-style-type: none"> □ गांसो जाग्रा,बेदर जाग्रा आरो गासिखौबो जाग्रा जिउनांनि फारागथिखौ मिथिनो हागोन। □ आदार जिनजि आरो आदारजेनि फारागथि मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया खारिसावथुननि (documentary) हेफाजाबजों गांसो जाग्रा, बेदर जाग्रा आरो गासैखौबो जाग्रा जिउनांनि सानदांथाइ होनायजों लोगोसे आदार जिनजि आरो आदारजेनि फारागथि बुजायना होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ गिबिनिफाय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 3 | आसामनि हारिमु(फरा नं-3) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ आसामनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोरोबलायनायै थानायनि गोसो जागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ आसाम लोगोसे बेयाव थानाय फारियाव थिसन जानाय थागिबि हारिफोरजों लोबबा थानाय गुबुन गुबुन बिथिं जेरै-गाननाय-जोमनाय, गहेना-फाथि, फोरबो, जानाय-लौनाय आरिनि खायसे सावगारि फरायसानो चार्टआव दिन्थिना आखुथाइफोरखौ बुजायना होगोन। | |
| 4 | मिथिंगायारि सम्पद (फरा नं-4) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ आसामनि अरनारि,दैयारि,खिनियारि आरो आबाद हारिनि बेसादनि बागै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया नुनाय-खोनानाय आगजुनि हेफाजाब लानाै मिथिंगायारि सम्पदनि गुबुन गुबुन सावगारिजों लोगोसे खारिसावथुन (documentary) दिन्थिना सम्पदनि सानदांथाइ होगोन। | |
| 5 | सम्पदनि सरैखाथि(फरा नं-5) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ मिथिंगायारि सम्पदसरैखाथिनि गुमुर मोनगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया मिथिंगायारि सम्पद सरैखाथिनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो खाबजाथाव बाथ्रा लिरना खायसे पस्टार(जेरै- लाइफां थाबोलासो जिउनां थागोन) थियारि खालामनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावबिथांथि थियारि खालामना लागोन। |
| 6 | बोथोर(फरा नं-6) | जौनि सोरगिदिं बार(फरा नं-15) | <ul style="list-style-type: none"> □ बोथोरादि गुबुन गुबुन थादेरसानि सायाव सोनारो बेनि सोमोन्दै बुजिनो हानाय जागोन। □ बोथोर बिगियान मिरुनि सोमोन्दै मिथिनायजों लोगोसे बारा माजों दाजानाय बेनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया बोथोरनि खारि बुथुमनो थाखाय बाहायजानाय आयजेंफोरनि सावगारिजोंलोगोसे मुनि मोनसे फारिलाइ दिन्थिना फरायसानो बोथोरनि सानदांथाइ होगोन। | |
| 7 | जौनि हादर भारतबर्ष (फरा नं-17) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ 'भारत' मुनि सोमजिखानायनि लोगोसे भारतनि मिथिंगायारि बाहागोनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ भारतनि हारिमुआव रिफिनाय गोरोबेनि गेजेराव गोरोबनाय बेनि सोमोन्दै बुजिमोनगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया मानसावगारिनि हेफाजाबजों भारतनि गुबुन गुबुन राज्योजों लोगोसे हाजो-हाजोमा,दैमा-दैसा आरिनि थामोननि सानदांथाइ होगोन। | |
| 8 | जौनि नसुंसेनि हादरसाफोर (फरा नं-18) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ भारतनि मानसावगारियाव सा-सानजाखौ सिनायना दिहुननो हागोन। सा-सानजा राज्योफोरनि दाथाइनि गुदिखोथा मिथिनायजों लोगोसे आसामनि नसुंसेनि हादरसा फोराव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया बर्डआव सा-सानजा भारतनि सोरगिदिं सिमा दिन्थिना मानसावगारि गांसे आखिना फरायसाखौ आखिनो थुलुंगा होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: द'थि ■ आयदा: समाज बिगियान

| फारि नं | थाखो बानि फरा | थाखो द'नि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|---|---|--|--|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> जोंनि आबहावा (फरा नं-1) <input type="checkbox"/> मिथिंगायारि सम्पदफोर (फरा नं-4) <input type="checkbox"/> सम्पदनि सरैखाथि (फरा नं-5) | आसाम: बारहावा,मिथिंगायारि लाइफां,हाग्रानि जिउनां आरो आबाद(फरा नं-7) | <input type="checkbox"/> आसामनि मिथिंगायारि सम्पद लोगोसे बारहावानि सोमोन्दै सानदांथाइ मोनगोन। <input type="checkbox"/> आसामनि मिथिंगायारि लाइफांनि रानसारनाय लोगोसे अरनारि जिउनांनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया नुनाय-खोनानाय आगजुनि हेफाजाब लानानै मिथिंगायारि सम्पदनि गुबुन गुबुन सावगारिजों लोगोसे खारिसावथुन (documentary) (काजिरडा/मानास आयदायाव) दिन्थिना सम्पदजों लोगोसे बारहावानि सानदांथाइ होगोन। <input type="checkbox"/> फरायसाफोरखौ बिसोरनि ओनसोलाव नुनाय गोबां अनजिमानि बिफां-लाइफांनि फारिलाइ गांसे थियारि खालामना बेफोरनि आखुथाइ लिरनो होगोन। <input type="checkbox"/> आसामनि हायुडारि पार्क आरो बेंथेजानाय अरनबारि गंनैसोनि गांसे फारिलाइ थियारि खालामगोन आरो बेफोर मानि थाखाय मुंदांखा बेखौ बेखेवना होगोन। <input type="checkbox"/> आसामनि गाहाइ बोथोरनि मुं लिरना बै बोथोर मोननैसोनि समफारिनि फारिलाइ थियारि खालामनो होगोन। बोथोर मोननैसोजों लोगोसे लोबबा थानाय फोरबोनि मुंबो फारिलाइयाव थिसन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइन्खौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावबिथाखि थियारि खालामना लागोन। |
| 2 | सोरथाथाइ बिखान्थि (फरा नं-2) | _____ | <input type="checkbox"/> जिउनां, लाइफां आरो मानसिनि गावजों गाव सोनारलायनायखौ बेखेवना होगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाखौ जिउनां,रज'जिब आरो मानसिनि गावजों गाव सोनारलायनायनि गांसे सावगारि बानायना सोरथाथाइ बिखान्थिनि बागै बेखेवगोन। | |
| 3 | आसामनि हारिमु(फरा नं-3) | _____ | <input type="checkbox"/> आसामीया हारिमुवादि मोनसे गेजेरारि हारिमु बेनि गियान मोनगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया थाखो खथायाव असमीया हारिमुजों लोबबा थानाय गुबुन गुबुन मुवा दिन्थिना बेनि आखुथाइफोरखौ बुजायना होगोन। | |
| 4 | जोंनि हादर भारतबर्ष (फरा नं-17) | जोंनि भारतबर्ष(फरा नं-8) | <input type="checkbox"/> मानसावगारियाव नसुंसेनि ओनसोल,दिन्थिसिन,बबेबा जायगानि थामोन,गोंनाथि गोनां जायगा आरि सिनायथिनो हागोन आरो गुबुनखौबो बेफोरखौ नागिरना दिहुननो बिथोन होनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया मोनफायै बिदिन्थिजों भारतबर्षनि हा-महरनि)जेरै- दीप-माजुली) गांसे फारिलाइ बर्डआव लिरना होगोन।फरायसाखौ बेफोर महरफोरनि गुबुन बिदिन्थि फारिलाइयाव सरजाबनो होगोन। <input type="checkbox"/> भारतनि मानसावगारिनि साया लानानै फोरोंगिरिया भारतनि राज्यो आरो मिरुवारि सासन खालामजानाय ओनसोलफोरनि सानदांथाइ होगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 5 | जोंनि नसुंसेनि हादरसाफोर (फरा नं-18) | _____ | <input type="checkbox"/> सा-सानजा हादरसाफोरनि दाथाइनि गुदिखोथा मिथिगोन आरो गुबुन गुबुन हारि-माहारिनि सोमोन्दै सानदांथाइ मोनगोन। | <input type="checkbox"/> मानसावगारिनि हेफाजाबजों सा-सानजानि हादरसाफोरजों लोगोसे बेनि हा-मिथिंगायारि बाहागोफोरखौ बुंफोरगोन। | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: स्निथि ■ आयदा: बर'(राव-1)

| फारि नं | थाखो द'नि फरा | थाखो स्निथि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 1 | बिथ 'राइ(फरा नं-1) | _____ | <input type="checkbox"/> खन्थाइनि गुबै रावखौ बुजिना फोरमायनो हानायजों लोगोसे होनजाब आरो दाजाब सोदोबखौ मिथिगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया जॉनि सोरगिदिं नुनाय जिब-जुनार,दाउमा-दाउसा आरो एम्फौ-एनलानि मुंफोरखौ फारिलाइ खालामनो होगोन आरो बेनि सोमोन्दै बेखेवना होगोन । | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों । गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन । |
| 2 | जॉनि उजिनाय हा बिमा (फरा नं-4) | जोनोम हादर(फरा नं-4) | <input type="checkbox"/> खन्थाइनि गुबै सानस्त्रिखौ बुजिना लिरनो हागोन । <input type="checkbox"/> हादरनि फारसे मोजां मोननाय सोमजिगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया स्मार्टफ'ननि जोहै जोनोम हादरनि थाखाय जिउ बाउलानाय गेदेमा सुबुंनि documentary एबा भिडिअ' दिन्थिना रोखा गियान होनायनि राहा लागोन । <input type="checkbox"/> जरा सोदोबफोरखौ माबोरै सायख 'यो बेनि सोमोन्दै सानदांथाइ होनाय । | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन । |
| 3 | सासे उदांस्त्रि दावहारु (फरा नं-5) | मिसाइल सुबुंसा(फरा नं-8) | <input type="checkbox"/> गेदेमा सुबुंफोरनि जिउखौरां,बिगियानारि सल' फरायना बुजि मोननाय । <input type="checkbox"/> सोरजिलु सानस्त्रिनि गेवसारहोनो हागोन । <input type="checkbox"/> बर राव थुनलाइ जौगाखांनयनि सोमोन्दै सानदांथाइ मोनगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया बिजाब बाब्रिनिफ्राय राव-थुनलाइ जौगानाय आरो बिगियानारि दिहुनथाइनि सोमोन्दै लिरनाय गुबुन गुबुन बिजाब बुथुमना फरायसाखौ फरायनो होगोन आरो बेनि सोमोन्दै सुंद' बेंफोरथि होगोन । | <input type="checkbox"/> बेयाव मख 'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन । |
| 4 | स्काउट आरो गाइड(फरा नं-6) | फोरमायथिना लायैनि जाउन(फरा नं-6) | <input type="checkbox"/> स्काउट आरो गाइडनि गुबै बाश्राखौ लिरनो हागोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया स्मार्टफ'ननि जोहै स्काउट आरो गाइडनि गुबुन गुबुन खुंथाइ दिन्थिना बेनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन । | |
| 5 | मिथिंगाजों गेलेनि फै (फरा नं-14) | _____ | <input type="checkbox"/> गथ 'सा थुनफावथाइ एबा गुबुन बिजाब गेबेडै फरायना बुजि मोननाय । <input type="checkbox"/> बाश्रा एबा डायलग लिरनो हागोन । फरायना बुजि मोननाय । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया थाखो खथायाव फावदिन्थिनाय, आवरायनाय आरि बायदि रोखोम मावहाबा मावनो थुलुंगा होनो नांगौ । <input type="checkbox"/> मोनसे फारिलाइनि हेफाजाबजों से सानराइ आरो बां सानराइनि सानदांथाइ होगोन । | |
| 6 | आबैखौ आं माबोरै फरायनो फोरोंखो(फरा नं-15) | _____ | <input type="checkbox"/> गोजाम सल',सल 'न्थाइ फरायना बुजिमोननाय । <input type="checkbox"/> हांखो सिनायनायनि गोनांथिखौ हमदां हानाय । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया थाखो खथायाव सल',सल 'बाथा आरि खोनथानो थुलुंगा होनांगौ आरो बेनि सोमोन्दै सानदांथाइ होनाय । <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया गोजाम सल',सल 'न्थाइ,खन्थाइ आरि बुथुमा फरायनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बेफोरनि सानथौनि सोमोन्दै सानदांथाइ होनांगौ । | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन ।

थाखो: स्निथि ■ आयदा: सानखान्थि

| फारि नं | थाखो द'नि फरा | थाखो स्निथि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|---|--|--|--|---|
| 1 | अनजिमानि दाथाइ(फरा नं-1) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ मोनसे गेदेर अनजिमाखौ जायगायारि मान बादियै सिफायना खाबजाथाव खान्थि बाहायना दाजाब,दानख' आरो सानजाबनो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ सानफ्रोमबो जिउजों गोरोबनाय लाखिना मोनथाम/ मोनब्रै सानजिमा थानाय अनजिमायाव दाजाब,दानख'नि गोरलै जेंना सुस्त्रानो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफाय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> □ भुमसुनि गुदि सानखांथाइफोर(फरा नं-3) | <ul style="list-style-type: none"> □ हांखो आरो ख'ना(फरा नं-5) □ आखान्थिथाम आरो बेनि धोरम(फरा नं-6) | <ul style="list-style-type: none"> □ आबहावायाव गोरलैयै मोननाय बेसादिनि बिदिन्थिनि हेफाजाबजों हांखो, हांखोखोन्दो, ख'ना, आखान्थिथाम, आखाथिब्रै आरि भुमसुयारि दाथाइ फोरमायनो हागोन। □ ख'नाफोरखौ गोथों हांखोआरि,जाफुंख'ना,जाफुंमा ख'ना,नांजाब ख'ना,उल्था ख'ना बादियै बाहागो राननो सोलोंगोन। □ मोनसे ख'नानि ज'खा होनाय थाब्ला गुबुन मोनसे ख'नानि ज'खा दिहुननो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया मोगथां मुवा,मडेल आरो लाइजामनि हेफाजाबजों फरायसाखौ गुबुन गुबुन भुमसुयारि दाथाइनि सानदांथाइ होगोन। ख'नामान दाजेम बाहायनानै फोरोंगिरिया ख'ना आखिनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि ख'नानि सानदांथाइ होगोन। | |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> □ आबुं अनजिमा (फरा नं-4) □ रग' अनजिमा (फरा नं-5) | अनजिमानि सिनायथि :रग' अनजिमा (फरा नं-1) | <ul style="list-style-type: none"> □ आबुं अनजिमानि सानदांथाइ आबुडै बुथुमनो हागोन। □ रग' अनजिमानि जेंनाफोरखौ सुस्त्रानो हागोन। □ रग' अनजिमानि जेंनाफोरखौ दाजाब आरो दानख'नि हेफाजाबजों सुस्त्रानो हानायजों लोगोसे रग' अनजिमानि सानजाब आरो राननो हानाय जागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसालिनि सिथलायाव फरायसाखौ गसंनो होना कार्दिनि जोहै आबुं आरो रग' अनजिमानि सानदांथाइ होनायजों लोगोसे बेफोर अनजिमाफोरनि दाजाब-दानख'नि सानदांथाइ रोखा जाहोगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 4 | फारिग्रोबथि (फरा नं-12) | फारिग्रोबथि (फरा नं-14) | <ul style="list-style-type: none"> □ हांखोआरि फारिग्रोबथिनि सानदांथाइ मोननायजों लोगोसे बांसिन फारिग्रोबथि हांखो थानाय नैखोंलारि दाथाइ सिनायना दाथाइ दानो हागोन। □ आबहावायाव मोननाय फारिग्रोबथि आरो गिदिंखननाय फारिग्रोबथि थानाय बेसाद एबा सावगारि सिनायथिनो हागोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसालिनि सोरदिडव मोननाय गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बुथुमना बेनिफाय फारिग्रोबथि महरनि बेसाद मख'ना फारिग्रोबथि हांखोनि थामोन दिन्थिगोन। | |
| 5 | रुजुथाइ आरो स्त्रेरुजुथाइ (फरा नं-13) | बिबानि रुजुनाय(फरा नं-8) | <ul style="list-style-type: none"> □ गुबुन गुबुन थासारियाव रुजुथाइनि हेफाजाबजों राशिफोरखौ रुजुना नायनो रोंगोन। □ रुजुथाइयाव थानाय बिबानि फारागथिफोरखौ बुजिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसालिनि गुबुन गुबुन थाखोनि फरायसानि अनजिमा बुथुमनायनि गेजेरजों फारिलाइ थियारि खालामना रुजुथाइ आरो स्त्रेरुजुथाइ थि खालामनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 6 | दांफ्लाइयारि/बाहायारि भुमसु (फरा नं-14) | दांफ्लाइयारि भुमसु (फरा नं-10) | <ul style="list-style-type: none"> □ भुमसुयारि आखान्थिथामनि मोननै खनानि ज'खा होनाय थाब्ला थामथि ख'नानि ज'खाखौ दिहुननो रोंगोन,आखान्थि आरो ख'नानि सायाव बिथा खालामना आखान्थिथामनि थाखो राननो सोलोंगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसाखौ हान्जायै फरायसालिनि आबहावायाव मोननाय सेवारि,खागज आरिनि जोहै गुबुन गुबुन दाथाइ दानो होगोन। □ थाखो खथानि सिडव आरो बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन भुमसुयारि दाथाइफोरनि आखुथाइफोरखौ हान्जायै एबा गावारियै फरायसाखौ नायबिजिरनो आरो सिनायथिना बहीयाव लिरनो एबा आखिनो होगोन। | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

Class-VII ■ Subject: English(Language-2)

| Sl. No. | Lesson of Class. VI | Lesson to be clubbed with Class. VII | Learning outcomes of clubbed /single lessons | Suggestive activities | Remark |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Tom Sawyer. (Lesson-2) | A Child's Beauty. (Lesson-7) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Participates in activities in English like role play, group discussion, speech etc. ❑ Write grammatically correct sentences for a variety of situations, using noun, pronoun, verb, adverb, determiners, etc. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The teacher will tell the students to write short paragraph based on verbal, print and visual clues. ❑ The teacher will write different types of sentences on the board and ask the students what they are called. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The classes from IV- VIII are included in this complementary material. From Class I to Class-III bridge material will be made available in the school ❑ To manage the lessons as per the complementary materials provided, the teacher will prepare a weekly plan on the model of the daily time-table . |
| 2. | Dhyan Chand. (Lesson-3) | Women in Space. (Lesson-8) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Writes words/phrases/simple sentences and short paragraphs as directed by the teacher. ❑ Thinks critically, compares and contrasts characters, events, ideas, themes and relates them to life | <ul style="list-style-type: none"> ❑ A video clip will be shown to them related to the topic and tell them to write about the legends. ❑ The teacher will give them the activity 'fill in the blanks' with suitable verbs. | |
| 3. | The Mountain and the Squirrel. (Lesson-7) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Uses meaningful sentences to describe/narrate factual/ imaginary situations in speech and writing | <ul style="list-style-type: none"> ❑ At first the teacher will recite the poem and then students will be told to recite with proper expression and intonation. ❑ Some examples of change of 'narration' will be shown by the teacher on the board. Following to that few sentences will be given to them to change the 'narration' | <ul style="list-style-type: none"> ❑ In addition to that the teacher will adopt strategies from ownself for lesson integration and activities to be done. |

- The teaching should be made interesting with the use of various audio, video, interactive content, and practice resource available on DIKSHA portal.

थाखो: स्निथि ■ आयदा: बिगियान

| फारि नं | थाखो द'नि फरा | थाखो स्निथि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|--|---|---|--|
| 1 | आदार(जामुं): बेयो बबेनिफ्राय फैयो (फरा नं-1) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ आदारनि रोखोमजों लोगोसे आदार मुवा आरो बेनि फुंखाफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन. | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया जाग्रा मुवा बानायनायाव बाहायनाय थादेरसाफोरनि मुं लिरना मोनसे फारिलाइ थियारि खालामना बेनिफ्राय मा मा आदार बानायनो हायो फरायसाखौ बुंनो होना लिरनो होगोन। □ फोरोंगिरिया जॉनि सोरगिदिं थानाय गासैबो जिबियानो दि थोजासे बिबानि आदार जानो मोना बेनि जाहोनखौ फरायसाखौ हान्जायै बुंनो होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रेनिफ्राय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | आदारनि दाफुंग्राफोर (फरा नं-2) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ आदारनि गुबै सुफुंसार मुवाफोर आरो बेनि गोनांथिफोरखौ मिथिनो हागोन। □ सुफुंसार मुवाफोर मुवाफोरनि आंखाल जानाय बेरामफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया जॉनि गाहाइ आदारफोराव मा मा सुफुंसार मुवाफोर मोनो बेखौ मोनसे चार्टनि हेफाजाबजों बुजायना होनायजों लोगोसे बेनि गोनांथिनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन. | |
| 3 | बेजेनिफ्राय सि-जोम (फरा नं-3) | बेजेनिफ्राय सि-जोम(फरा नं-3) | <ul style="list-style-type: none"> □ गुबुन गुबुन रोखोमनि सिनि सोमोन्दै मिथिनाय आरो सिनायनाय। □ मिथिगायारि बेजे आरो बिजिरख'दानाय बेजेनि सोमोन्दै मिथिगोन आरो बेजेनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय आदब आरो खुन्दुंनिफ्राय सि बानायनाय बाथाखौ मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ सिनि थुखा बुथुमनो होना बेजे आरो खुन्दुंनि सानदांथाइ होगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 4 | हान्जायाव मुवाफोरखौ बासिख'नाय (फरा नं-4) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> □ मुवानि गुबुन गुबुन धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनायजों लोगोसे बेफोरनि नुजाथि महर,गोराथि,गलिग्रा एबा गलियि, .गोगोथाइ ,गोगो नडि मुवा आरिनि सोमोन्दै | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ फरायसालिनि सोरगिदिंनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा जेरै-चकपेन्सिल,रेबथुम बिजाब,रबर,डास्टार,बेट आरि बुथुमनो होना खाखोर,हा एबा दंफांजों बानायनाय मुवाफोरखौ आलादा खालामनो होगोन। □ फरायाव थानाय मावहाबा(4.5) नि हेफाजाबजों फोरोंगिरिया मुवानि गलिग्रा आरो गलियि मुवा बेनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन। | |
| 5 | मुवाफोरनि बोखावनाय (फरा नं-5) | एसिड,खारदै आरो सखि(फरा नं-5) | <ul style="list-style-type: none"> □ गलायमुवाफोरखौ बोखायनायनि आदबफोर आरो बेनि गोनांथिफोरखौ मिथिनो हागोन। □ एसिड,खारदै आरो सखिनि फारागथिफोरखौ मिथिनायजों लोगोसे मोनसेया मोनसेजों थानाय सोमोन्दोनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फोरोंगिरिया फरायाव थानाय मावहाबानि जोहै मुवानि गलि... सानदांथाइ होगोन. □ फोरोंगिरिया बर्डआव एसिड,खारदैयारि गुन थानाय खायसे आदारनि मुं लिरना बेफोरनि जुथिखौ फरायसाखौ बुंनो होना एसिड,खारदै आरो सखिनि सानदांथाइ,फारागथि आरिनि सोमोन्दै खोनथागोन | <ul style="list-style-type: none"> □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 6 | सुम्बकजों रंजानाय (फरानं-13) | मोब्लिब दाहार आरो बेनि बिजाउनफोर (फरा नं-14) | <ul style="list-style-type: none"> □ सुम्बक आरो बेनि धोरोमनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ मोब्लिब सुम्बक,बानायनाय सुम्बक,मिथिगायारि सुम्बकनि धोरोमनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <ul style="list-style-type: none"> □ फरायसालियाव मोननाय बेसाद जेरै इलेक्ट्रनिक फेन आरिनि बिदिन्थि लाना बानायनाय चुम्बकनि बाहायनायखौ बुजायना होगोन। □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ माब्लिब दाहारनि जाउनाव बिटुं सोमजिनाय खायसे माब्लिब आयजेंनि मुं बुंनो होना मोब्लिब दाहार आरो बेनि बिजाउननि सानदांथाइ होगोन। | |

| फारि नं | थाखो द'नि फरा | थाखो स्त्रिनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|--|--|---|--|---|
| 7 | दै(फरा नं-14) | दै: मोनसे बेसेन गोनां सम्पद(फरा नं-16) | <input type="checkbox"/> दैन फुंखा, दैन गिदिनाय, दैन खफ', अखानि दै सरैखा खालामनायनि राहा आरिनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> दै-थोरफोनि हायलांनायनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> जोमैनि दाथाइ बुजायनो फोरोंगिरिया गुदुं दैन आयजें गंसेनि गिलिबाव सोमजिनाय दैन थरथं जानायखौ बिदिन्थि महरै दिन्थिना होगोन। <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया स्मार्टफ'नि हेफाजाबजों दैन आंखालाव मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ दिन्थिना दै आद्रिखालामनायखौ होबथानायजों लोगोसे दैया दि बेसेन गोनां सम्पद बेनि सोमोन्दै बेखेवना होगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादो। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 8 | जोंनि सोरगिदिं बार (फरा नं-15) | _____ | <input type="checkbox"/> बार आरो बेनि थादेरसाफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन। बारनिफ्राय अक्सिजेन गोमोरनाय बाश्ना मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायाव सरजाबनाय मावहाबा 4 नि हेफाजाबजों फरायसाखौ बारनि सोमोन्दै सानदांथाइ रोखा खालामगोन। | |
| 9 | दाखोर-दालाफोर आरो बेफोरखौ फोसाबनाय (फरा-नं-16) | आद्रि जानाय दैन सल'(फरा नं-18) | <input type="checkbox"/> दाखोर आरो बेनि बाहायफिननाय सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> दाखोर लोगोसे मैला जानाय दै फोसाबनाय आरो दाफिननायनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया 'स्वच्छ भारत मिछन'नि गुबुन गुबुन नोजोर आरो थांखिनि जोहै गारगारनाय दैन राहानि सोमोन्दै फरायसाखौ मिथि होगोन। | |

- दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ', साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: स्निथि ■ आयदा: समाज बिगियान

| फारि नं | थाखो द'नि फरा | थाखो स्निनि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सरजाबनाय/हारसिनि फरानि सोलों फिथाइ | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | सानखराडाव जॉनि बुहुम (फरा नं-1) | _____ | □ ग्रह,नक्षत्र आरो ग्रहसा, बिदिन्थि महरै सान,बुहुम अखाफोरनि फारागथि दिहुननो हागोन। | □ फोरोंगिरिया नुनाय-खोनानाय आगजु बाहायनानै फरायसाखौ सानखरानि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन। (जेरै-मडेल,सावगारि आरि) | □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रेनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफाय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | बुहुमनि देरथाइ आरो महर (फर नां-2) | _____ | □ ग्लबनि हेफाजाबजों बुहुमनि देरथाइ सोमोन्दै सानदांथाइ मोनगोन। | □ ग्लबनि हेफाजाबजों फोरोंगिरिया फरायसाखौ बुहुमनि देरथाइ, बिषुव हांखो, अक्षफान, द्राधिमाफान, कर्कटक्रान्ति हांखो, मकरक्रान्ति हांखो आरिनि सानदांथाइ होगोन। | |
| 3 | मा,बबेयाव,माब्ला आरो माबौरै (फरा नं-9) | आगु जारिमिनारि आसाम(फरा नं-13) | □ खारिमिन लिरनायनि बेलायाव खारिमिननि गुबुन गुबुन फुंखाफोर जेरै-गोदोमिनारिफुंखा,थुनलाइयारि फुंखानि बाश्रा सावरायनो हागोन। | □ फोरोंगिरिया जारिमिन सोमोन्दोयारि फुंखाफोरखौ सावगारिनि हेफाजाबजों थाखो खथायाव बेखेवना होगोन। | |
| 4 | जॉनि गुदि गोनांथिफोर (फरा नं-17) | _____ | □ मानसिनि गुदि गोनांथिफोरनि बागै मिथिनायजों लोगोसे गुदि गोनांथिफोरखौ मानो गुदि गोनांथि बुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै बुजि मोनगोन। | □ फोरोंगिरिया फरायसानो आदार, खसाब, थाग्रारुखुलिनि गोनांथिनि सायाव बुंनो होगोन। | |
| 5 | गोजाम अन्थाइ मुगा (फरा नं-10) | _____ | □ गोजाम मानसिनि आदार, थाग्रारुखुलि आरो आयजें-आयलानि बागै मिथिनायजों लोगोसे अरनि दिहुनथाइनि सोमोन्दै गियान मोनगोन। | □ फोरोंगिरिया गोजाम अन्थाइ मुगानि सावगारि दिन्थिना फरायसाखौ बेनि सोमोन्दै हान्जायै बुंनो होगोन। | □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 6 | जौगाखां जिउनि गोनांथिफोर (जॉनि गावारि आरो समाजारि गोनांथि)(फरा नं-18) | जॉनि सोरगिदिनि हाथाइ (फरा नं-18) | □ सुबुनि गुदि गोनांथिफोरनि अनगायैबो गावारि आरो समाजारि गोनांथिफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन। □ हाथाइनिफाय मोननाय गुबुन गुबुन खाबुफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन। | □ फोरोंगिरिया बर्डआव मानसिनि गावारि आरो समाजारि गोनांथिफोरखौ मोननै बाहागोआव लिरना फरायसानो गोनांथिफोरनि बागै खोनथानो होगोन आरो फोरोंगिरिया फारसेनिफाय लिरलांगोन। □ फोरोंगिरिया थाखो खथायाव हाथाइ हाथाइ गेलेनायनि जोहै बायग्रा-फानग्रानि सानदांथाइ होनायजों लोगोसे हाथाइनि बायदि रोखोम बिथिनि सोमोन्दै मिथिहोगोन। | |
| 7 | □ गोदान सानस्निनि जाखांनाय(फरा नं-15) □ मौर्य साम्राज्यो गेदेमा आश'क आरो कौटिल्यनि आर्थशास्त्र (फरा नं-16) | _____ | □ महाबीर आरो गौतमबुद्धनि फोरोंनायफोरजों सिनायथि मोननाय। | □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ गाव थानाय सुबानि मुं/बागै सौना महाजनपदिनि सानदांथाइ होगोन। □ गोजाम भारतनि मानसावगारिनि हेफाजाबजों मौर्य मुगानि उननि भारतबर्षनि सानदांथाइ होनो हागोन। □ फोरोंगिरिया गोजाम भारतनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मुंजों फोसावगिरिनि मुंनि मोनसे फारिलाइ थियारि खालामना फरायसानो जैन आरो बुद्ध धोरोमनि गुमुर होगोन। | □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 8 | जायगायारि जारखुंथाइ राहा (फरा नं-24) | _____ | □ जायगायारि जारखुंथाइनि दाथाइ खान्थि,हाबा-हुखानि बागै मिथिगोन। | □ फोरोंगिरिया फरायसाखौ गामि पन्सायतनि हाबा-हुखानि मोनसे फारिलाइ थियारि खालामनो होना जायगायारि जारखुंथाइनि दाथाइ खान्थिजों लोगोसे हाबाखौ बेखेवना होगोन। | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: दाइनथि ■ आयदा: बर'(राव-1)

| फारि नं | थाखो स्त्रिनि फरा | थाखो दाइनथि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | थाखो दाइनथि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुथि |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | फुनि आर'ज(फरा नं-1) | ऐ बिफा गुरु नों (फरा नं-15) | <input type="checkbox"/> ग'साइखौ सिबिना खननाय आर'ज मेथाइ, खन्थाइ आरि बुजि मोनगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया गुबुन गुबुन आर'ज मेथाइ बुथुमनो होना बेफोरखौ गेबेडे खननो थुलुंगा होगोन । <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ बाथो थानसालि एबा फोरबोफोराव लांना बाथौजों ,सोमोन्दो थानाय आसार-खान्थिनि सोमोन्दै गोरलैयै बुजायना होगोन आरो सोदबनि ओंथिफोरखौ लिरना दिहुननो होगोन । | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों । <input type="checkbox"/> गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन । |
| 2 | पण्डित आनन्दराम बरुवा (फरा नं-3) | ह'मि जाहांगीर भाबा(फरा नं-13) | <input type="checkbox"/> गेदेमा सुबुं एबा जर'खा सुबुनि जिउखौरां आरि फरायना बुजि मोनगोन आरो बिथांमोननि आदर्शखौ गावनि जिवाव बाहायनो सोलोगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ बिजाब बाखियाव लांना जर'खा सुबुनि जिउ खौरां सायख'नो होना फरायनो थुलुंगा होगोन । | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन । |
| 3 | जोनोम हादर(फरा नं-4) | सोमदोन(फरा नं-7) | <input type="checkbox"/> हादर अनफावरि गोसो जाखार होनो हागोन । <input type="checkbox"/> गोदानै मोननाय सोदोबनि ओंथि मिथिनो थाखाय सोदोब बिहुं नायनो सोलोगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ हादर मोजां मोनना लिरनाय खन्थाइ.सल'फावथाइ आरि बुथुमना फरायनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे हादर अनफावरि खन्थाइ आवरायनो होगोन । <input type="checkbox"/> गोदानै मोननाय रोखोमसे सोदोब आरो उल्था सोदोब मिथिनो थाखाय सोदोब बिहुं बाहायनो थाखाय थुलुंगा होगोन । | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन । |
| 4 | गोनोखो आरो जौनि सानस्रि (फरा नं-5) | दावगानायनि सनाथि लामा(फरा न-5) | <input type="checkbox"/> मोब्लिबारि बिजौनि मोजां बाहानयो हागोन । <input type="checkbox"/> फरायनायनि गेजेरजों साफायनाय अनलाइन गुबुन गुबुन खारिनि सानदांथाइ एबा गियाय मोनगोन । | <input type="checkbox"/> मोब्लिबारि बिजौनि जेरै-म'बाइल,अनलाइन आरिनि जोहै गावखौ सुथानाय (self -help group) गुथुमफोरनि जोहै दिहुनजानाय बायदि रोखोम मुवा-बेसादखौ दि अनलाइन जोहै फाननो-बायनो हायो तामहिनबा मोब्लिबारि बिजौनि मोजाडे बाहायनायनि सोमोन्दै मिथिगोन । | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन । |
| 5 | सोलोंथाइ(फरा नं-14) | बेसाद बिगियाय फरायसंनाय(फरा नं-6) | <input type="checkbox"/> गेदेमा सुबुं एबा जर'खा सुबुनि रायथाइ फरायनानै बेनि गुबै बाश्राखौ बुजि मोनगोन । <input type="checkbox"/> फरायसानि सिखव थाखोमना थानाय सोरजिथाइयारि रोंग'थिया गोसारगोन । | <input type="checkbox"/> गेदेमा सुबुं एबा जर'खा सुबुनि लिरथि फरायनानै बेनि गुबै बाश्राखौ बुजि मोननायाव हेफाजाब होगोन । | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन । |
| 6 | आराय रैसुमै आमनि राव (फरा नं-15) | _____ | <input type="checkbox"/> बिमा राव मोजां मोननाय खन्थाइनि जोहै बिमा रावखौ सिबिनो,अनसायनो रोंगोन । | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया मोगथां जिउजों लोबबा लानानै रावाव रावखान्थि बाहायनो हागोन । | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन ।

थाखो: दाइनथि ■ आयदा: सानखान्थि

| फारि नं | थाखो स्त्रिनि फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | बोखावखोन्दो आरो दशमिक (फरा नं-2) | रानजोबथाइ अनजिमा (फरा नं-1) | <input type="checkbox"/> बोखावखोन्दोनि राननाय आरो सानजाब माबोरै खालामो बिजिर हागोन, लोकोसे दशमिक बोखावखोन्दोनि सानजाब आरो राननाय सानखान्थिनि खान्थिफोरखौ बाहायनो रोंगोन। | <input type="checkbox"/> रां-फैसा, लाउथाइ, दुंथाइ आरिजों गुबुन गुबुन जेंना बोखावखोन्दो आरो दशमिक बोखावखोन्दोजों सुस्त्रांनो सानदांथाइ होगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | गोरलै समानथाइ (फरा नं-4) | मोनसे सोलायस्तु थानाय जौगासेनि समानथाइ (फरा नं-2) | <input type="checkbox"/> सानफ्रोमबो जिउनि जेंनाफोरखौ गोरलै समानथाइनि हेफाजाबजों फोरमायना सुस्त्रांनो। <input type="checkbox"/> सोलायस्तु बाहायना पाजल आरि सुस्त्रांनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फरायसाखौ गावनि बैसो आरो बिमा-बिफानि बैसोनि फारिलाइ थियारि खालामना समानथाइनि दाथाइनि सानदांथाइ होगोन आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोर सुस्त्रांनो थाखाय मावहाबा खालामनो होगोन। | |
| 3 | हांखोजालियारि राशि (फरा नं-12) | <input type="checkbox"/> हांखोजालियारि राशि आरो थाबिथाफोर (फरा नं-9) <input type="checkbox"/> हांखोजालियारि राशिनि सानजाबगिरि बिजिरनाय (फरा नं-14) | <input type="checkbox"/> हांखोजालियारि राशिफोरनि दाजाब आरो दानख'नो हागोन। <input type="checkbox"/> हांखोजालियारि राशिफोरजों सानजाबनो सोलौनायजों लोकोसे सानफ्रोमबो जिउनि गुबुन गुबुन जेंना सुस्त्रांनायाव गुबुन गुबुन हांखोजालियारि थाबिथाफोरखौ बाहायनो सोलौगोन। | <input type="checkbox"/> कार्ड गेलेनायनि जोहै हान्जायाव हांखोजालियारि गुबुन गुबुन जेंना सुस्त्रांनो हागोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफ्रोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 4 | दिन्थिथि आरो गोहोन्थि (फरा नं-13) | दिन्थिथि आरो गोहोन्थि (फरा नं-12) | <input type="checkbox"/> सानजाब आरो राननायजों गिदिर अनजिमानि जेंना सुस्त्रांनायाव अनजिमानि दिन्थिथियारि महराव फोरमायनो रोंगोन। <input type="checkbox"/> दिन्थिथियारि महराव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्त्रांनो रोंगोन। <input type="checkbox"/> सानफ्रोमबो जिउजों लोकोसे लोबबा थानाय गुबुन गुबुन खारि बुथुमना फारिलाइ थियारि खालामनो हागोन। <input type="checkbox"/> लाउथि सावगारि आरो पाइ सावगारि आरिखानाँ बिजिरनो रोंगोन। <input type="checkbox"/> आबहावायाव मोननाय फारिग्रोबथि आरो गिदिंखननाय फारिग्रोबथि थानाय मुवा एबा सावगारि सिनायनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायसाखौ गले गले सानजाबनाय हाबाखौ माबोरै सुंद'थै फोरमायनो हायो बेखौ दिहुननो थाखाय फोरोंगोन। जैरै-2×2×2×2×2 2 ⁶ जों फोरमाय | |
| 5 | गथा दाथाइनि नुहोनाय (फरा नं-15) | गथा दाथाइनि नुहोनाय (फरा नं-10) | <input type="checkbox"/> थाम खौलारि एबा गथा बेसादनि दाथाइनि सानदांथाइ मोनगोन, थाम खौलारि दाथाइफोरखौ मोनसे समान थाला बिखुडव दिन्थिनो हागोन। <input type="checkbox"/> घनक, आयतारि घनक, दुलुर, हासुं आरिनि लाउथाइ, अरथाइ, जौथाइनि ज'खा सुनो हागोन। | <input type="checkbox"/> फरायसालिनि आबहावायाव मोननाय थाम खौलारि एबा गथा बेसादफोरखौ हान्जायाव एबा गावारियै नायबिजिरना आरो बेबादिनो ख'ना, रुगुं, थाला, थिखिनि बिन्दो सिनायथिना खौमोन महराव फोरमायनो हागोन। <input type="checkbox"/> थाखो खथानि मैजा, बागसु, बर्ड आरि आबहावायाव मोननाय बेसादनि दब्लाइथि थि खालामनायनि थाखाय हान्जायै मावहाबा खालामनो होगोन। | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ', साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथव खालामगोन।

Class-VIII ■ Subject: English(Language-2)

| Sl. No. | Lesson of Class. VII | Lesson to be clubbed with Class. VIII | Learning outcomes of clubbed /single lessons | Suggestive activities | Remark |
|---------|--|--|---|---|---|
| 1. | Hobbies. (Lesson-1) | ————— | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Communicates accurately using appropriate grammatical forms. ❑ Reads, compares, contrasts, thinks critically and relates ideas to life. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Students will be encouraged by the teacher to write about their hobbies. ❑ The teacher will encourage them to use dictionary as a reference book for finding multiple meanings of a word in a variety of context. | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The classes from IV- VIII are included in this complementary material. From Class I to Class-III bridge material will be made available in the school ❑ To manage the lessons as per the complementary materials provided, the teacher will prepare a weekly plan on the model of the daily time-table . ❑ In addition to that the teacher will adopt strategies from ownself for lesson integration and activities to be done. |
| 2. | Uruka Adventure (Lesson-2) | Dokchory learns about the Panchayat (Lesson-4) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ They will be able to explain in English about an adventurous experience. ❑ Speaks about objects/ events/ school environment and outside surroundings | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Students will be encouraged to attempt writing on various topic related to culture, adventure with proper tense. ❑ The teacher will divide the class into groups and encourage the learners to make posters of festivals with interesting captions and descriptions of food, dress and rituals that form a part of the festival. | |
| 3. | From the Diary of Anne Frank, (Lesson-3) | Chandrababha Saikiani (Lesson-8) | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Write personal dairy, formal letters, list, e-mail, etc. ❑ Reads textual/non textual materials in English with comprehension | <ul style="list-style-type: none"> ❑ The teacher will give activity of making a list of words ending making a list of words ending with ‘ght’, which are pronounced as ‘t’. ❑ The teacher will encourage the learners to write about their daily lives. ❑ The teacher will give the idea to the learners about the different forms of verb with the help of the activities mentioned in the lessons. | |

- The teaching should be made interesting with the use of various audio, video, interactive content, and practice resource available on DIKSHA portal.

थाखो: दाइनथि ■ आयदा: बिगियान

| फारि नं | थाखो स्त्रिनि फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|---|---|---|---|
| 1 | लाइफानि सुफुंसारनाय (फरा नं-1) | _____ | <input type="checkbox"/> सोरां बिजिरख' दानाय खान्थिनि हेफाजाबजों सोमखोर लाइफाड गावनि आदार दाना लानो हायो बेनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> गोथै जिबआरि,बियाद आरो गुबुन जाग्रा जिबनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया स्मार्टफ'ननि हेफाजाबजों 'सोमखोर न' ' दिन्थिना बेयाव लाइफानि जोथोनखौ माबोरै खालामदों नायबिजिरनो होना फरायसाखौ लाइफानि सुफुंसारनायनि सानदांथाइ होगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनंजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | जिउआरिनि सुफुंसारनाय (फरा नं-2) | _____ | <input type="checkbox"/> सुफुंसारनायाव सुफुंसार मुवानि नांगौ ज'खा आरो देहायाव बेनि गोनांथिनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> मानसिनि दोगोन बिखान्थि आरो जाफुंनाय दोगोननि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया मानसिनि दोगोन बिखान्थिनि सावगारि दिन्थिना बेनि बाहागोफोरनि खामानि बुंफोरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिबनि बेलायाव दि जाफुंनाय दोगोना गुबुन गुबुन जायो बेनि सानदांथाइ होगोन। <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया आदाराव थानाय थादेरसाफोरनि मुं फरायसाफोरखौ खोनथानो होगोन। | |
| 3 | बेजेनिफ्राय सि-जोम (फरा नं-3) | बिजिरख' दानाय बेजे आरो प्लाष्टिक (फरा नं-3) | <input type="checkbox"/> मुवानि नुजाथि महर, गुन, धोरुम/आखुथाइ आरो खामानि बेफोरखौ नायबिजिरना थाखो राननो हानायजों लोगोसे सिनायनो हागोन। <input type="checkbox"/> जिउआरि आरो लाइफानिफ्राय मोननाय बेजेमुवानि खान्थि आरो बिजाउन बेखेवनो हागोन। <input type="checkbox"/> बिजिरख' दानाय बेजेनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> एम्फौ(लाथा)नि जिउ खौरं एबा जिउ गिदिंखन दिन्थिनायजों लोगोसे खाबुबादियै हिसान सालियाव (तातासालाव) सि दानाय आदबखौ स्मार्टफ'ननि जोहै दिन्थिगोन। | <input type="checkbox"/> बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गंसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 4 | बिदुं (फरा नं-4) | _____ | <input type="checkbox"/> दुंथाइनि सानदांथाइ आरो दुंथाइ सुनायनि सोमोन्दै मिथिगोन। <input type="checkbox"/> बिदुंनि दोरोद होनाय मिथिगोन। <input type="checkbox"/> गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोराव बाहायनाय सिनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायाव थानाय मावहाबानि हेफाजाबजों बिदुंनि सानदाइथाइ होगोन। | |
| 5 | महरारि आरो रासायनारि सोलायनायफोर (फरा नं-6) | _____ | <input type="checkbox"/> महरारि आरो रासायनारि धोरुमनि सोमोन्दै मिथिगोन <input type="checkbox"/> रासायनारि सोलायनायनि फारागथि मिथिनायजों लोगोसे रासायनारि समानथाइ लिरनो हागोन | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया फरायाव थानाय गुबुन गुबुन मावहाबानि हेफाजाबजों महरारि आरो रासायनारि सोलायनायफोरखौ बुजायना होगोन। | |
| 6 | बोथोर, बारहावा आरो बारहावायाव जिउआरिनि खाबजाहोनाय (फरा नं-7) | _____ | <input type="checkbox"/> बोथोरनि दुंथाइनि गोहोमनि सोमोन्दै मिथिगोन <input type="checkbox"/> गुबुन गुबुन बारहावायाव जिउआरिनि खाबजाहोनाय सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> फोरोंगिरिया भारतारी बोथोर बिगियाननि सोमोन्दै मिथिनी थाखाय गाहायनि वेबसाइटखौ नायनो हायो http://www.imd.gov.in | <input type="checkbox"/> बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 7 | सोरां (फरा नं-15) | सोरां (फरा नं-16) | <input type="checkbox"/> सोरांनि खारथाइ दिग सोमोन्दै आनजादजोंलोगोसे मिथिगोन। <input type="checkbox"/> थार सायखं आरो थार नडि सायखंनि नुजाथि मिथिगोन <input type="checkbox"/> खंसा आरो खरलेब लेन्सआव सायखं दानायनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> टर्स, आयना आरो सेरावनो मोननाय बेसादजों सोरांनि खारथाइ, आयनायाव सायखं दानाय आरिनि सानदांथाइ होगोन। | |
| 8 | अरनबारि: जोंनि जिउ रैखागिरि (फरा नं-17) | _____ | <input type="checkbox"/> अरनबारिया गोहोम खोख्लैनो हानाय गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मिथिगोन। <input type="checkbox"/> आदार जिनजनि सोमोन्दै मिथिगोन। | <input type="checkbox"/> मानसिनि जिवाव अरनबारिनि गोहोमनि सोमोन्दै फरायसाखौ सुंद'यै बुंनो होना बेनि गुबुन गुबुन बानजायनायनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन। | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ', साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।

थाखो: दाइनथि ■ आयदा: समाज बिगियान

| फारि नं | थाखो स्त्रिनि फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | थाखो दाइननि फराजों सरजाबनो हानाय फरा | सुबुरुनथाइयारि मावहाबा | बिबुंथि |
|---------|--|---|---|---|--|
| 1 | बुहुम बिखुंआव सम साननाय (फरा नं-1) | _____ | □ अक्षफान आरो द्राधिमाफाननि सोमोन्दै मिथिनायजों लोगोसे जायगायारि सम साननाय सोलो बुथुमनो हागोन। | □ फोरोंगिरिया ग्लबनि हेफाजाबजों अक्षफान आरो द्राधिमाफान सिनारयथिनो होना बुहुम-बिखुंआव सम साननायनि सानदांथाइ होगोन। | □ बे सुफुंसारनायाव थाखो ब्रैनिफराय थाखो दाइनखौ सरजाबना लानाय जादों। गिबिनिफ्राय थाखो थामनि खहा सुफुंनो थाखाय फरायसालियाव फोनांजाब मुवाफोर मोनगोन। |
| 2 | बुहुमनि इसिं बाहागो (फरा नं-2) | _____ | □ बुहुमनि इसिं बाहागो आरो बेनि गुबुन गुबुन थोरफोनि सोमोन्दै मिथिगोन। | □ फोरोंगिरिया बुहुमनि इसिं बाहागो आरो बेनि गुबुन गुबुन थोरफो थानाय गांसे सावगारि आखिना फरायसाफोरनो बेनि सोमोन्दै सानदांथाइ होगोन। | |
| 3 | गुप्त साम्राज्योनि जाखांनाय (फरा नं-11) | _____ | □ गुप्त खुंथाइ राहानि सोमोन्दै साज्रां सानदांथाइ मोनगोन। | □ गुप्तफोरनि बिहोमानि सोमोन्दै गांसे फारिलाइ थियारि खालामना फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों बे साम्राज्योनि जौगानायनि सोमोन्दै सावरायगोन। | |
| 4 | भारतनि सा-सानजा ओन्सोल (फरा नं-8) | आसामनि दैमा-दैसा(फरा नं-7) | □ सा-सानजा भारतनि भुमखौराडरि थामोन,मिथिंगायारि बिफान, बारहावा आरो दैमा-दैसानि सोमोन्दै मिथिगोन। | □ फोरोंगिरिया गावनि गियाननि बिथाथियाव आसामनि हाजो-हालाफोरनि मुनि फारिलाइ थियारि खालामनो होना बेफोरनि सोनारथाइजों आसामनि भुमखौराडरि थाथाइ,बारहावा,सुबुं अनजिमानि दाथाइ आरिनि सानदांथाइ होगोन। | □ बे सुफुंसार बादियै फराफोरखौ सामलायनो फोरोंगिरिया सानफोमबोनि सम फारिनि बिथायाव गांसे हासायारि मावबिथांखि थियारि खालामना लागोन। |
| 5 | □ म'गलनि खुंथाइ समनि भारतबर्ष (फरा नं-16) □ भारतबर्षनि हारिमुवारि बिथिडव म'गलफोरनि बिहोमा (फरा नं-17) | _____ | □ म'गल खुंथाइ समनि समफारिजों लोगोसे सिनायज्जलायनो हागोन। □ भारतबर्षनि हारिमुवारि बिथिडव म'गलफोरनि बिहोमानि सोमोन्दै सानदांथाइ मोननो हागोन। | □ फोरोंगिरिया म'गलफोरनि फोलेर/ साम्राज्यो/ हारिमुवारि/ खुंथाइयारि फोसाबथाइ आरो मख'जाथाव महर दाथाइनि सायाव मोनसे मावथांखि थियारि खालामना फरायसानो भारतबर्षआव म'गल खुंथाइ समनि सानदांथाइ होगोन। | |
| 6 | भारतबर्षनि बारहावा, मिथिंगायारि लाइफां,आबाद आरो सुबुं अनजिमा (फरा नं-9) | सुबुं अनजिमा बांनाय आरो रानसारनाय(फरा नं-2) | □ भारतबर्षनि बारहावा,लाइफां,आबाद आरो सुबुं अनजिमा बांनाय आरो रानसारनायनि सोमोन्दै सानदांथाइ मोनगोन। | □ भारतनि मानसावगारिनि हेफाजाबजों फोरोंगिरिया भारतनि गुवारथि,बुहुम मिथिंगा,सुबुं अनजिमानि रानसारनाय,रोजोबथि,आबाद आरिजों लोगोसेनो सम्पदफोरनि सोमोन्दैबो मिथिगोन। | □ बेयाव मख'नायनि अनगायैबो फोरोंगिरिया फरा सरजाबनाय आरो मावहाबानि बेलायाव गावनि बादियैबो सोलो बाहायनो हागोन। |
| 7 | सिमायारि हान्जा आरो सुबुंखान्थियारि मोनथाइ (फरा नं-25) | गुदि मोनथाइ(फरा नं-23) | □ सिमायारि हान्जाफोरनि सुबुंखान्थियारि मोनथाइफोरखौ बुजि मोनगोन। | □ फोरोंगिरिया भारतनि संबिजरिनि खुगा फोरनायखौ बर्डआव लिरना बेखेवना होगोन आरो भारतारी नोगोरारिनि सुबुंखान्थियारि मोनथाइ लोगोसे गुदि मोनथाइनि सानदांथाइ रोखा खालामगोन। | |

● दीक्षा पर्टेलाव मोननाय गुबुन गुबुन अडिअ' भिडिअ',साननायनि सोलाय-सोल'थाइयारि फुंखा आरो उनसोलों फुंखानि जोहै फराहोनायखौ गोसो बोनोहाथाव खालामगोन।



थाब थाब चेनिटाइजार बाहायनाय



थिगमथै माक्स गाननाय



फरायसालिनिफ्राय फैना
जुथा-सि बायजोआव दोननाय



फरायसालिनिफ्राय फैना दुगैनाय



जानायनि सिगांआव आरो
उनाव साबोनजों आखाइ सुनाय



समाजारि जानखारथाइ मानिना सोलिनाय



कभिड-19 बेराम-बारदेरनायनि
थाखाय लानो गोनां गुदि सांग्रांथि